



Janhvi Kapoor On Telugu...

SHARE
सेंसेक्स : 80,148.88
निफ्टी : 24,413.50

SARAFI
सोना : 6,665
चांदी : 92.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

गुजरात में बारिश से इमारत गिरी, 3 की मौत

NEW DELHI : गुजरात में पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका के खंबालिया में एक तीन मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और दो बच्चों की मौत हो गई।

खीसाघट के बस्तर संभाग में भारी बारिश की वजह से देवेवाड़ा जिले के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी का एक डैम टूट गया। इससे डैम का पानी किरंदुल शहर में घुस गया। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा मकान-दुकान ढह गए। पानी का पलो इतना तेज था कि सड़क पर खड़े छोटे-बड़े वाहन बहने लगे।

टैक्स घटने के बाद सोना ₹4,000 तक हुआ सरस्ता

NEW DELHI : बजट में सोना-चांदी की करस्टम ड्यूटी (इम्पोर्ट टैक्स) घटने के बाद से 2 दिन में सोना 4000 रुपये और चांदी 3600 रुपये सरती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोना-चांदी पर करस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है।

किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बाँडर अभी नहीं खुलेगा

NEW DELHI : हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बाँडर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, शंभू बाँडर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। दरअसल, किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद कर रखा है।

स्ट्रॉंग आर्मी दुश्मन के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया है यह जहाज

इंडियन नेवी के लिए नया जंगी जहाज 'त्रिपुट' लॉन्च

AGENCY NEW DELHI :

भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज 'अथर्व' के आह्वान के साथ समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन ने लॉन्च किया है। यह नौसेना में वर्ष 2026 में शामिल होगा, जिससे आने वाले वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता में बहुत अधिक मजबूती आएगी।

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की बहाली में अनियमितता की शिकायत

EXCLUSIVE

ANAND MISHRA @ JSR

एक कहावत है 'खता न बही, राजा जो कहे वही सही'। ऐसे राज में कोई कानून नहीं चलता, यानी जंगलराज होता है। जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में कमोवेश यही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां वीसी 'फाइनांस ऑफिसर' दोनों अपनी मममजी चला रहे हैं। इन दोनों के संरक्षण में यूनिवर्सिटी में व्यापक का अनियमितता बरती जा रही है।

नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रिजल्ट से पहले हो गई नियुक्ति, फाइनांस ऑफिसर की बेटी भी बहाल

विद्युति की प्रक्रिया में वह कहीं नहीं हैं। इस संबंध में सेलेक्शन बोर्ड के लोन अथवा सीवीसी कुछ बता सकती हैं।

राजेंद्र जायसवाल, कुलसचिव। आज में छुट्टी पर हूँ। विश्वविद्यालय लांछने पर ही कुछ बता सकती हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी में मौजूद किसी अधिकारी से पूछ सकते हैं।

बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी जांच की मांग सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखकर रिजल्ट की घोषणा किए बगैर सविदा आधारित शिक्षक-शिक्षिकाओं से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों तक की नियुक्ति हो रही है। पीपचडी रजिस्ट्रेशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। छात्र नेता हेमंत पाठक ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए।

एफओ की एक बेटी का हुआ था पीपचडी में रजिस्ट्रेशन

कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करने वाली एवं साक्षात्कार में शामिल अस्थायियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि फाइनांस ऑफिसर की बेटी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। भावजुद्ध उनकी नियुक्ति कर ली गयी, इसलिए इसकी अविलंब जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किरलंब हुआ, तो ऐसे अस्थायी को बकडेट में टूट कर मामले को लौपापाती कर दी जाएगी। फाइनांस ऑफिसर डॉ.जावेद अहमद की एक बेटी शनुपत्ता जावेद जमशेदपुर वीमेंस

रजिस्ट्रेशन की पीपचडी कर रही है। बताया जाता है कि पीपचडी एडमिशन के समय प्लाइट कम होने के बावजूद डॉ. अहमद यूनिवर्सिटी प्रशासन के समक्ष अड़ गए थे। उन्होंने हर हाल में अपनी बेटी को रजिस्ट्रेशन के लिए वीटा लगा दिया था, जबकि एक छात्रा नेट क्वालिफाइड थी और उसका प्लाइट भी अधिक था। फाइनांस ऑफिसर के अडिवाय रवेयें को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुंझुका पड़ा और काफी नवडडझाला कर नेट क्वालिफाइड

छात्रा का प्लाइट कम दशांकर उनकी बेटी को रजिस्ट्रेशन किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 178 अस्थायियों ने आवेदन किया था। इनमें से 168 अस्थायी तकनीकी परीक्षा सह साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इन नियुक्ति के संबंध में फिलहाल वैसे अस्थायियों को ही जानकारी हो, जो यूनिवर्सिटी में किसी न किसी रूप में कार्यरत हैं। इसका रिजल्ट जारी किए बगैर वजन प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले तीन लोगों को काम शुरू करने के लिए कह दिया गया है।

कंप्यूटर ऑपरेटरों में तपन, दीपाशा और गुलिस्तां शामिल

पिछले ही दिनों यूनिवर्सिटी में तीन कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गयी है। इनमें वे तीन नाम शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति पहले से ही तय मानी जा रही थी। विश्वविद्यालय सूत्रों ने पहले ही इन तीनों की बहाली की संभावना जताई थी। नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों में तपन मोदक, दीपाशा

शरण और गुलिस्तां जावेद शामिल हैं। तपन मोदक पिछले कई वर्षों से यहां सविदा पर कार्यरत हैं। दीपाशा करण यूनिवर्सिटी की कुलापति डॉ. अजिता गुप्ता की पीप हैं। वहीं गुलिस्तां जावेद यूनिवर्सिटी के फाइनांस ऑफिसर डॉ.जावेद अहमद की बेटी हैं।

कैबिनेट की मीटिंग में हेमंत सरकार के 30 महत्वपूर्ण फैसले

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर आधारित होगी बहाली

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट की मीटिंग हुई। इसमें 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने यह स्वीकृति दे दी है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियमावली लागू होगी। शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षकों की दो वर्ष या अधिकतम उम्र 70 वर्ष तक की जा सकेगी। प्राध्यापक को 2.50 लाख रुपये सहायक प्राध्यापक को दो लाख व सहायक प्राध्यापक को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य कर्मियों का विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की गई। एक्स श्रेणी के अधिकारियों को 27% की बजया अब 30%, चाई में 18 फीसदी के बजाय 20% और जेड श्रेणी में 10 % देने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा परिवहन भत्ता, गैरट हाउस भत्ता होटल भत्ता इत्यादि में भी बढ़ोतरी की गई है। झारखंड कारा सेवा और सुधार विधेयक 2024 की स्वीकृति दी गई।

मंत्री और अधिकारियों को मोबाइल खरीदने के लिए मिलेंगे 60 हजार



विशेष सचिव स्तर के अफसर ₹45000 तक का खरीद सकेंगे फोन

राज्य सरकार के मंत्रियों और सचिवालय के वरीय अधिकारियों से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे सभी राजपत्रित कर्मियों को फोन व रिचार्ज की सुविधा में बढ़ोतरी की। मंत्रियों व अधिकारियों को 60 हजार रुपये तक का फोन व मंथली रिचार्ज 3000 रुपये तक दी जायेगी। मोबाइल फोन का जीवनकाल चार वर्षों तक रखा गया है। वहीं, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45000 रुपये तक का फोन खरीद सकेंगे व उनकी रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये दिया जायेगा। अपर सचिव व इससे न्यून पदाधिकारियों को 40000 रुपये तक फोन व 1500 रुपये मासिक रिचार्ज, इसके अलावा उप सचिव व इसके नीचे के अधिकारियों को 35000 व अपर सचिव से नीचे स्तर के अधिकारियों को 30000 रुपये फोन के लिए व क्रमशः

1000 रुपये व 750 रुपये मंथली रिचार्ज अमाउंट दिया जायेगा। एनपीएस टायर वन में पैशन निधि और निवेश रिटर्न में संशोधन, हजारीबाग स्थित शेख मिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और पश्चिम सिंहभूम जिला के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पद सुजन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गयी।

इन एजेंडों पर भी मुहर

- मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए परिचय पत्र देने की स्वीकृति दी गई।
- विधानसभा सदस्य स्टीफन मरांडी को 20 सूटी कार्यक्रम समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति को मिली मंजूरी
- अस्पतालों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए 5 करोड़ रुपये प्रतियुक्त देने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को विघटित किया गया है। इसके तीन कर्मियों को उपनिदेशक कल्याण छोटा नागपुर कार्यालय में समायोजित करने पर मुहर।

नेपाल के काठमांडू में प्लेन अवानक झुका, पलटा और लग गई आग

उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश, 18 की मौत

AGENCY NEW DELHI :

बुधवार को सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। घायल पायलट कैप्टन एम. शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। यह विमान 9एन-एएमई प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे।

पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए पहुंची



ले जाया जा रहा था कास्टिंग के लिए

जानकारी के अनुसार, 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टैस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी के टैस्टिंग स्टाफ था। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए पहुंची।

टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया हवाई जहाज

घटनास्थल पर मौजूद वरमदीनों ने काठमांडू पोस्ट से बात करते हुए कहा, प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेकऑफ कर रहा था। अवानक से इसमें झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद यह रनवे के पूर्वी हिस्से में झुका एयर हेमर और रडार स्टेशन के बीच एक गड्ढे में गिर गया। सौर्य एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक, कंपनी नेपाल में 5 जगहों के लिए विमान संचालित करती है। इनके पास 3 बोयंबार्डियर सीआरजे-200 जेटस मौजूद हैं। नेपाल में एयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। यह कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रही है। हालांकि, खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहां अकसर हादसे होते रहते हैं।



जम्मू-कश्मीर में सेना व आतंकीयों के बीच मुठभेड़, जवान शहीद

KUPWADA : जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के कोपुत इलाके में बुधवार सुबह सेना-आतंकीयों के बीच गोलीबारी में एक और जवान शहीद हो गया है। नॉन कमीशंड ऑफिसर दिलवार सिंह अस्पताल में इलाज के दौरान मृत हो गए। एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। इससे पहले मंगलवार को पुंघ में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लॉस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए थे। सेना ने बताया कि उन्हें कोपुत में मंगलवार को 2-3 आतंकीयों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। सर्व ऑपरेशन के दौरान आतंकीयों ने फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। देर रात दिलवार सिंह को गोली लगी थी। एनकाउंटर में आज सुबह जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। जुलाई 2024 में अब तक जम्मू-कश्मीर में 8 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें कुल 13 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षाकर्मियों ने 12 आतंकीयों को मारा गिराया। जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परसट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हो गया है। पहले ये लोग आतंकीयों का सामान ढोने का काम करते थे, अब उन्हें गांवों में ही हथियार, गोला बारूद और खाना-पीना दे रहे हैं। बीते दिनों जिन 25 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, उन्होंने पूछाछ में इसके सुराग दिए हैं।



एमओयू साइन होने के बाद सीएम हेमंत व टाटा ग्रुप के सीईओ नरेन्द्रन।

रांची के कोर कैपिटल में बनेगा होटल ताज, साइन किया गया एमओयू

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में होटल ताज और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बीच एमओयू हुआ। इसके तहत राजधानी रांची के घुर्वा स्थित कोर कैपिटल में होटल खुलेगा। सीएम हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेन्द्रन की मौजूदगी में एमओयू संपन्न हुआ। झारखंड की राजधानी रांची के लिए सुशाखबरी है। अब रांची के घुर्वा स्थित कोर कैपिटल में होटल ताज बनेगा। इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में होटल ताज के साथ एमओयू किया। सीएम हेमंत सोरेन स्वयं मौके पर मौजूद थे। एमओयू को लेकर झारखंड मंत्रालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग और टाटा इंटरप्राइजेज की अनुमोषी इकाई ड इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच ताज होटल के निर्माण को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी



- बोले सीएम- कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है सरकार
- कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का शानदार और सफल आयोजन
- नीतियां अच्छी हों तो लोगों को रोजगार के लिए पलायन की जरूरत नहीं

व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सकें। नीतियां अच्छी हों तो लोगों को रोजगार के लिए पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड को नयी दिशा देने के लिए पूरी ताकत के साथ राज्य सरकार काम कर रही है।

झारखंड से हमारा सौ साल पुराना संबंध : नरेन्द्रन

एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टी वी नरेन्द्रन ने कहा कि झारखंड का टाटा के संबंध कोई नया है। यह संबंध 100 साल से भी पुराना है झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां टाटा ग्रुप पिछले कई सालों से

माइनिंग से लेकर मैनुफैक्चरिंग का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पिछले कई सालों से रांची में ताज होटल खोलने जाने को लेकर प्रयासरत थे। आज यह पूरा होता दिख रहा है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद।

मैक्लुस्कीगंज व लातेहार में ताबडतोड़ छापा नक्सली रविंद्र के करीबियों के टिकानों पर एनआईए रेड

CRIME REPORTER RANCHI :

झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने 15 लाख के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंडू के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंडू को समर्थन देने वाले और उसके काली कमाई का निवेश करने वाले आधा दर्जन लोगों के टिकानों पर बुधवार को एनआईए की टीमों ने रांची मैक्लुस्कीगंज और लातेहार के कई टिकानों पर ताबडतोड़ रेड मारी। जानकारी के अनुसार, मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के लपारा में जितेन्द्रनाथ पांडेय व रोहित यादव नाम के दो लोगों के घर पर



एनआईए का छापा पड़ा है। पुलिस ने दोनों घरों को घेरे लिया है। घरों के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। छापाकारी में अधिकारियों संग दो महिला अधिकारियों के भी होने की सूचना है। किसी को भी घरों से निकलने या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बताया जाता है कि एनआईए की टीम सुबह चार बजे ही मैक्लुस्कीगंज थाना पहुंच चुकी थी।

दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की हुई वापसी

विधायक कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीडियो कॉल के जरिए कराई बात

PHOTON NEWS GIRIDIH : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश एवं श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की त्वरित पहल पर दक्षिण अफ्रीका के कैमरून के याउंडे में विनायक कंस्ट्रक्शन, फेस जेंडरमेरी, अप्रेस ऑडिटरियम और जीन पॉल टू मर्बांकलो कंपनी में कार्यरत झारखंड के 27 श्रमिकों की बुधवार को सवरे सुरक्षित घर वापसी हो गई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैद्यनाथ राम, मंत्री बेबी देवी, विधायक कल्पना सोरेन और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने श्रमिकों के गिरिडीह पहुंचने पर उनका स्वागत किया। साथ ही सभी श्रमिकों को तत्काल 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि दी। उन्होंने श्रमिकों से बात कर उनकी पूरी

व्यथा को जाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मोबाइल की जरिए श्रमिकों से संवाद किया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग मदद करने का आश्वासन दिया। श्रमिकों ने विकट परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका से घर लौटने के लिए राज्य सरकार के पहल पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। यह है पूरा मामला : दक्षिण अफ्रीका में फंसे 27 श्रमिकों में बोकारो के 18, गिरिडीह के चार और हजारीबाग-पांच श्रमिक हैं। ये सभी श्रमिक इस वर्ष 29 मार्च से वहां काम कर रहे थे। उन्होंने 16 जुलाई को एक्स हैंडल पर चार महीने से पारिश्रमिक बकाया रहने और वापस भारत लौटने की इच्छा जताई थी। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी प्राप्त होते ही श्रम,



वीडियो कॉल पर बात करते एीएम हेमंत सोरेन

रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया। साथ ही पीओई, रांची को सचिव, श्रम विभाग की ओर से मामले पर संज्ञान लेने के लिए पत्र भेजा गया। पत्र के माध्यम से कामगारों को उनका बकाया पारिश्रमिक और उनके

कोडरमा के दादी स्टील फैक्ट्री में करंट से मजदूर की मौत

KODERMA : जिले के झुमरीतिलैया स्थित दादी स्टील मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्रा. लि. में काम करने के दौरान बुधवार को हादसे में एक मजदूर की मौत हो गयी। मृतक की पहचान यूपी निवासी वीर बहादुर सिंह के रूप में हुई है। वह बलिया जिले का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार काम करने के दौरान बिजली का करंट लगने से वह गिर गया। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। यह भी बताया जाता है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर फैक्ट्री में एहतियात के उपाय नहीं किये गए थे। फैक्ट्री में इलाज की व्यवस्था भी नहीं थी। मजदूर का शव सदर अस्पताल में रखा गया है। उसके परिजनों के आने के बाद अंत्यपरिक्षण करवाया जाएगा।

खूंटी के स्कूलों में जाकर मध्याह्न भोजन की निगरानी करें अधिकारी: उपायुक्त

PHOTON NEWS KHUNTI : उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय खूंटी स्थित सभागार में समग्र शिक्षा, प्रार्थमिक, माध्यमिक शिक्षा, केजीबीवी, मध्याह्न भोजन, पोएम पोषण मॉनिटरिंग एवं स्टैयरिंग कमेटी से संबंधित बैठक की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने विद्यालयों में प्रतिदिन दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन पर विशेष जोर देते हुए मेनु अनुसार मध्याह्न भोजन का संचालन करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रतिदिन बने वाले मध्याह्न भोजन एवं बच्चों की उपस्थिति से संबंधित एस्पएमएस



बैठक करते उपायुक्त लोकेश मिश्रा

फोटोन न्यूज

रिपोर्ट विभाग को प्रार्थमिकता के आधार पर भेजने को कहा गया। बैठक में उपस्थित सभी बीईओ को अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर मध्याह्न भोजन समेत अन्य व्यवस्थाओं की ससमय निगरानी करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों में अत्याधुनिक हाइट एवं वेट मशीन को लेकर जानकारी ली गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि

प्रार्थमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत बच्चों को उक्त सामग्रियां ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिले में संचालित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई को लेकर भी उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। बच्चों का आधार एनरोलमेंट के विषय पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने विद्यालयों में कैप लगाकर प्रार्थमिकता के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट एवं दिव्यांगता सर्टिफिकेट निर्गम करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षक अपने विद्यालयों में उपस्थित रहें और प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करें।

लातेहार में 85 प्रतिशत कम हुई वर्षा, धान की फसल पर संकट

LATEHAR : उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी अमृतेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से 23 जुलाई तक औसत से काफी कम वर्षा हुई है। खरीफ मौसम में जून की सामान्य वर्षापति 152.4 मिमी है, लेकिन अब तक मात्र 22.9 मिमी वर्षा हुई है, जो औसत से 85 प्रतिशत कम है। उपायुक्त ने धान फसल का आच्छादन नहीं होने की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना तैयार करते हुए कार्य करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत लॉन्ग टर्म ई-केवाईसी-3592 पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका कारण सहित लाभुकों की सूची की मांग 15 अगस्त तक करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कुल 3516 मृदा नमूना का निर्देश निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक कुल 2840 मिट्टी नमूना का संग्रहण किया गया है। संग्रहित मिट्टी नमूनों में 543 ही मिट्टी जांच प्रयोगशाला भेजी गई है एवं 318 मिट्टी नमूने का विश्लेषण किया गया है। इस पर उपायुक्त ने 15 अगस्त तक सभी संग्रहित मिट्टी नमूनों को मिट्टी जांच प्रयोगशाला में भेजते हुए और जांच कराते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाए।

कांग्रेस के नेताओं ने थामा आजसू पार्टी का दामन



कार्यक्रम में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता

फोटोन न्यूज

HAZARIBAG : मनातू पंचायत के बकचोमा में आजसू पार्टी का कार्यक्रम मिला समारोह बुधवार को हुआ। युवा नेता सुनील कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आजसू का दामन थामा। आजसू के बड़कागांव विस प्रभारी रोशनलाल चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार जनता ने विकास के लिए मतदान करने का मन बनाया

है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास, युवाओं को यहीं पर रोजगार से जोड़ेंगे। बड़कागांव में उद्योग का हब होने के बावजूद यहां के युवाओं का पलायन उनके परिवार के लिए भी दुःखदायी होता है। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य भोला महतो, प्रखंड अध्यक्ष बैजनाथ महतो, लीलाधन साव, सुनील कुमार, पूजा कुमारी, पंसस चरमी देवी, सीता देवी, पूजा देवी आदि मौजूद रहे।

खूंटी में मादक पदार्थों के खिलाफ छापेमारी करें अधिकारी: लोकेश मिश्रा

KHUNTI : उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को नार्को कॉऑर्डिनेशन सेंटर की हुई बैठक में मादक द्रव्य पदार्थों के नियंत्रण के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित इस बैठक में पुलिस विभाग एवं एनकोर्ड से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी द्वारा आपसी समन्वय के साथ अपने क्षेत्र में हो रहे मादक द्रव्य पदार्थों की खेती और कारोबार को चिह्नित कर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले की सीमाओं एवं विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

संसद में उठा रजहरा कोलियरी को चालू करने का मुद्दा

PALAMU : सांसद विष्णु दयाल राम ने बुधवार को लोकसभा में पलायन एवं रोजगार के अभाव के दौरान कोयला मंत्रालय से कोयले की गुणवत्ता, रजहरा कोलियरी में उत्खनन प्रारम्भ करने एवं विस्थापितों को नौकरी देने से संबंधित प्रश्न पूछा, जिसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने दिया। सांसद ने कहा कि मंत्री के लिखित उत्तर से यह स्पष्ट है कि विभिन्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति अलग-अलग राज्यों को की जा रही है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि जिस राज्य को जिस गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता है, उस राज्य को उस गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति की जा रही है या नहीं? यदि नहीं की जा रही है तो किस मापदंड के आधार पर कोयले की आपूर्ति की जा रही है। सांसद ने



कहा कि देश में आज भी कई खदानें बंद पड़ी हुई हैं। इन बंद पड़ी कोयला खदानों में निकलने वाले योग्य भंडार लगभग 380 मिलियन टन है, जिसमें से 30-40 मिलियन टन आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसी ही एक सीसीएल की खदान रजहरा उनके संसदीय क्षेत्र पलामू में है, जिसे खोलने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं और हर तरह की व्यवस्था भी की जा चुकी है। केवल 20 विस्थापितों को नौकरी दी जानी है, जिस पर पेट्रॉल जनरल की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।

डाटम पातम जलप्रपात में नहाने के दौरान डूबे किशोर का शव बरामद

PALAMU : लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के डाटम पातम जलप्रपात में सोमवार को नहाने के दौरान पानी में डूबे किशोर का 24 घंटे बाद शव बरामद किया गया। युवक की पहचान पलामू जिले तरहसी थाना क्षेत्र के पसरह कसमार ग्राम निवासी बिगू गोस्वामी का पुत्र रंजन गोस्वामी (16) के रूप में हुई है। बुधवार को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम लातेहार सदर अस्पताल में किया गया। घटना के बाद से रंजन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार सोमवार को अपनी बहन की सोमवारी पूजा कराने के बाद रंजन अपने चार दोस्तों के साथ हेरहंज के डाटम पातम जलप्रपात में नहाने के लिए घर से निकला था। उसके दो दोस्त डालटनगंज से, जबकि रंजन समेत तीन युवक गांव से निकले थे।

पांकी विधायक के निजी खर्च से चाको नहर की मरम्मत शुरू

PHOTON NEWS PALAMU : जिले के पांकी प्रखंड के लोहरसी पंचायत के ग्राम गिड़ी गांव में बिहार सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1960 में बनायी गयी चाको सिंचाई योजना में नहर मरम्मत का कार्य पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता द्वारा बुधवार को निजी खर्च पर शुरू कराया गया। जानकारी के अनुसार बीते दो वर्षों से इस योजना के बंद हो जाने से चार पंचायत के दर्जन से अधिक गांव सिंचाई से वंचित हो गए थे। मामले की जानकारी होने के बाद विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने तीन जेसीबी की मदद से नहर मरम्मत का कार्य शुरू कराया। बुधवार की सुबह चाको बराज पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने



मरम्मत कार्य में लगा पोकेलोन

फोटोन न्यूज

कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार पांकी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर चिंतित नहीं है, जिस कारण विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बड़ी योजनाएं धरातल पर नहीं उतारी जा रही। यदि विभाग एवं सरकार सचेत रहते तो किसानों को दो वर्षों से परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। मेहता ने कहा कि लगभग 64 वर्ष पहले बराज का निर्माण कार्य करवाया गया है लेकिन

मेंटेनेंस के अभाव में किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि जहां-तहां नहर टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत कर तत्काल किसानों को पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से की जा रही है ताकि दर्जनों गांव के लोग सिंचाई कर सकें। नहर के मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद किसानों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता को धन्यवाद ज्ञापन भी किया।

फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर किया जाएगा व्यापक प्रचार-प्रसार, एक घंटे तक पूरे राज्य में चलेगी प्रक्रिया

वोटर लिस्ट में '# नाम जांचो' अभियान आज, आप भी कर सकते भागीदारी

PHOTON NEWS LATEHAR: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में '# नाम जांचो' अभियान के सफल संचालन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संशोधन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के तहत 25 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से '# नाम जांचो' अभियान आरंभ किया जा रहा है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है, ताकि सभी मतदाता अपना नाम जांच लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और वे मतदान करने के लिए तैयार हैं।



बैठक को संबोधित करती उपायुक्त गरिमा सिंह

फोटोन न्यूज

25 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक '# नाम जांचो' अभियान का सोशल नेटवर्किंग साइट्स यथा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व सभी मीडिया प्रतिनिधियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। आगे बताया कि फोटोयुक्त मतदाता

निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा श्रेयांश, विभिन्न राजनीतिक दलों व मीडिया प्रतिनिधि समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ऑफलाइन : 25 जुलाई को प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति सभी बूथ लेवल पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी। बूथ लेवल पदाधिकारी उक्त तिथि को अपने संबद्ध मतदान केंद्र में सुबह 10 बजे से उपस्थित रहेंगे। मतदाता स्वयं एवं अपने अर्हतायुक्त सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शुद्ध-शुद्ध एवं एक ही मतदान केंद्र या अनुभाग में दर्ज है, की जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन : मतदाता सूची में दर्ज नाम का सत्यापन करने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप (गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा)।

वोटर सर्विस पोर्टल

- मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, सुधार करने या स्थानांतरित करने आदि के लिए उपलब्ध दावा-आपत्ति प्रपत्रों की शिक्की।
- **प्राप्रूप-6** : नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र।
- **प्राप्रूप-6 क** : किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन।
- **प्राप्रूप-6 ख** : निर्वाचक नामावली अधिग्रहण के दौरान एका दस्तावेज या कि कोई नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन।
- **प्राप्रूप-7** : विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने या हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्राप्रूप।
- **प्राप्रूप-8** : विद्यमान निर्वाचक नामावली, ईपिक प्रतिस्थापन या दिव्यांगजन विक्रित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार या निवारण स्थानांतरण के लिए मतदाता आवेदन प्राप्रूप।

मतदाता सूची के बारे में विशेष जानकारी के लिए डायल करें 1950

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मिश्रा ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एका दस्तावेज या कि कोई नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष जानकारी के लिए आप 1950 पर डायल करके या संबंधित बीएलओ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कोडरमा में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा अभियान



KODERMA : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि नाम जांचो अभियान का प्रारम्भ कोडरमा जिले में सभी मतदान केंद्रों पर 25 जुलाई को मध्याह्न 12 से एक बजे तक किया जायेगा। उन्होंने जिले के प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे मतदान केंद्र जाकर मतदाता सूची से या ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर नाम जांच कर लें कि उनका नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज है।

हजारीबाग में मां ने बेटी के साथ खाया जहरीला पदार्थ, बच्ची की मौत

HAZARIBAG : एक मां ने चार वर्षीय पुत्री शिवानी कुमारी को जहरीला पदार्थ खिला दिया और खुद भी खा लिया, जिससे बच्ची की मौत हो गयी। घटना कटकमसांडी के कटकमसांडी गांव के कसिया टोला की है। कटकमसांडी पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। महिला के पति सुरेंद्र यादव ने कहा कि 21 जुलाई को पत्नी सुमन देवी ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और पुत्री शिवानी कुमारी को भी खिला दिया। जानकारी मिलते ही दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवानी की स्थिति गंभीर होने के बाद 22 जुलाई को आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 23 जुलाई की रात उसकी मौत हो गयी। बेटी की मृत्यु की खबर सुनते ही पत्नी सुमन देवी शोक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार हो गयीं।

BRIEF NEWS

बाल सुधार गृह से फरार तीन बाल कैदियों को पुलिस ने पकड़ा

RANCHI : राजधानी के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह से फरार तीन बाल कैदियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तीनों बाल कैदी बुधवार को बाल सुधार गृह की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बाल कैदियों को पकड़कर बाल सुधार गृह को सौंप दिया। दो को उनके घर से और एक को बाल सुधार गृह के समीप से पकड़ा गया है। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि तीनों फरार बाल कैदियों को पकड़ लिया गया है और बाल सुधार गृह को सौंप दिया गया है।

बीमारी से परेशान शख्स ने की खुदकुशी

RANCHI : राजधानी के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकर चुन्ना भट्टा निवासी संजय सिंह ने घर की छत के लोहे के पंगल से गमछे के सहारे फंदा लगाकर बुधवार को खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार संजय सिंह बीमारी की वजह से परेशान थे। वह शराब के आदी थे। उनका 80 प्रतिशत किडनी काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा थाइराइड, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारी के वजह से वह डिप्रेशन में थे। इस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। पत्नी उषा सिंह के बयान पर युद्धी केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। उन्होंने बताया कि बीमारी की वजह से वह परेशान थे, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली।

इंद्रपुरी रोड में एक बुजुर्ग की उसके घर में हत्या

RANCHI : राजधानी के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी रोड नंबर छह में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसकी शिनाख्त उमेश लकड़ा (75) के रूप में की गई है। वह घर में अकेले रहता था और शराब का आदी था। उसके मुंह से सफेद ज़ाग भी निकल रहा था और सिर पर चोट का निशान था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। सिर पर भीथरा हथियार का जख्म मिला है। घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेजर ने की मुलाकात

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मेजर जनरल परमवीर सिंह डायर (जीओसी, 23 इन्फैंट्री डिवीजन, दीपाटोली) ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने 28 जुलाई से जेआरडी स्पॉटर्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में आयोजित हो रहे टूर्नामेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ऑपनिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

हाईकोर्ट ने परियोजना को पूरा करने में आठ साल मांगे जाने पर जताई नाराजगी, कहा- कनहर बराज नहीं बनाना चाहती है सरकार, तो बंद कर दे यह प्रोजेक्ट

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू एवं गढ़वा में सिंचाई के लिए प्रस्तावित कनहर बराज परियोजना को पूरा करने में आठ साल मांगे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मौखिक कहा कि प्रतीत होता है कि राज्य सरकार कनहर बराज प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। यदि ऐसा है तो राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2010 में भी राज्य सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पांच साल की समय की मांग की गई थी और अब वर्ष 2024 में भी आठ साल का समय मांगा जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या वर्ष 2010 में दूसरी सरकार थी और अब कोई दूसरी सरकार है, जो इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रही है? इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कनहर बराज परियोजना को पूरा करने के लिए आठ साल की मांग की गई थी। कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि कनहर बराज के लिए जमीन अधिग्रहण, वन भूमि का क्लीयरेंस, इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि लेने आदि में कई वर्ष लग जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट गढ़वा एवं पलामू जिले के लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए है। यहां सुखाड़ जैसी स्थिति प्रतिवर्ष रहती है। सरकार को प्राथमिकता देते हुए ऐसे इलाकों में सिंचाई एवं पीने का पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पिछले सुनवाई में मामले में कोर्ट

अफसर की जमानत याचिका खारिज

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रजन की अदालत ने बुधवार को जमीन घोटाले के आरोपित अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 12 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बढगाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले से जुड़ा है। अफसर अली ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 मई को याचिका दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में ईडी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 17 अप्रैल को रिमांड पर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने पहली बार सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में 14 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बढगाई अंचल के जमीन घोटाले में गिरफ्तार कर उससे रिमांड पर लेकर पूछाछा की थी।



जब हत्या का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो तो उसके पीछे की मंशा साबित करने की जरूरत नहीं : हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने हत्या होते देखी हो और उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो तो अभियोजन पक्ष के लिए अपराध के पीछे की मंशा साबित करना जरूरी नहीं है। दरअसल रांची सिविल कोर्ट ने अजित बारला को जेम्स केरकेट्टा की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए 27 नवंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया था। रांची सिविल कोर्ट के इस फैसले को अजित बारला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अजित की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडीट में सुनवाई हुई। इस दौरान अजित की ओर से उपस्थित अधिकाता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध के पीछे के मकसद को साबित करने में विफल रहा। कहा कि जिसने घटना को देखने का दावा किया था, उसके को विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी नहीं माना जा सकता।

विधायक लोबिन व जेपी के दलबदल मामले की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

झामुमो विधायक लोबिन हेमंत और भाजपा विधायक जेपी पटेल के दलबदल मामले की सुनवाई स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में बुधवार को पूरी हो गई। स्पीकर ने लगातार दो दिन दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो ने जब दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो जेपी पटेल मामले में वादी अमर कुमार बाउरी की ओर से कहा गया कि विधायक केवल इतना बता दें कि वह कांग्रेस के चुनाव विद्द हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ें था या नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल की ओर से कहा गया कि मुझे कल ही याचिका की कॉपी मिली है। इसलिए मुझे जवाब के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों का समय मांगा।

सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आरिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के दोषी सुखराम होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुमाना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जांच में आरोपित सुखराम होरो का डीएनए मेन किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाया था। कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे अन्य तीन आरोपित राहुल होरो, रोशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था। यह मामला 23 जुलाई, 2022 का है। मामले में 15 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी।

हेमंत के खिलाफ कंग्रेज केस : ईडी ने जवाब में कहा, नहीं मिलनी चाहिए व्यक्तिगत पेशी से छूट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंग्रेज केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उपस्थित हुए बिना केस संचालन करने की अनुमति दी जाये। ईडी के जवाब पर हेमंत सोरेन की ओर से 3 अगस्त को बहस होगी। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है। दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे। आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

के आदेश पर मुख्य सचिव, जल संसाधन सचिव, वन सचिव और वित्त सचिव हाज़िर हुए थे। कोर्ट ने उनसे मौखिक कहा था कि वर्ष

2020 में राज्य सरकार ने पांच साल में इस परियोजना को पूरी होने का टाइमलाइन दिया था लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा है।

गुलाम अहमद ने रियाजुल अंसारी से की मुलाकात

RANCHI : कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रियाजुल अंसारी का इलाज रांची के बरियार्डू स्थित जयप्रकाश नगर के मां ललिता पालीडॉक हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद चल रहा है। बुधवार को अंसारी को देखने और उनका हाल-चाल जानने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बंधु तिकरी, कृषि बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान एवं अन्य विशिष्ट लोग पहुंचे।

गवर्नर के आदेश पर हजरत हाफिज मो. अबुल कलाम को बनाया गया शहर काजी

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को हजरत हाफिज मो अबुल कलाम को शहर काजी बनाया गया। यह निर्णय झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने काजी अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के आदेश पर किया है। राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसमें लिखा है कि काजी अधिनियम 1880 संख्या-12 की कंडिका-2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल के आदेश से हाफिज मो अबुल कलाम को रांची जिला का भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण-पत्र देने हेतु शहर काजी की अनुज्ञाति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं। बता दें कि हाफिज अबुल कलाम 1988 से छोटी अरिजुद हिंदपीढ़ी के इमाम और तरावीह के नमाज पढ़ाते आ रहे हैं। जिकरा अर्बिक स्कूल माली टोला हिंदपीढ़ी में इन्हें की निगरानी में चल रहा है। हाफिज अबुल कलाम ने दीनी तालीम के साथ मारवाड़ी कालेज से गिरेजवेशन किया और शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाई। शहर



काजी हाफिज मो. अबुल कलाम व अन्य।

काजी का लेटर आने के बाद हाफिज अबुल कलाम ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से उनके आवास पर जाकर फूलों का गुलदस्ता देकर मंत्री जी का शुक्रिया अदा किया। मंत्री जी ने कहा कि रांची शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आपको शहर काजी बनाया है। इनको शहर काजी बनाए जाने पर रांची के उलेमा में खुशी है। मुबारकबाद देने वालों में इमारत शरिया के काजी ए शरीयत मुफ्ती मो अनवर कासमी, शहर काजी मुफ्ती कम्म आलम कासमी, शहर के समाजसेवी सह आजसू नेता अशरफ खान चुन्नु, अयूब राजा खान, जमीयत उलेमा झारखंड के कोषाध्यक्ष शाह

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने की बैठक, दिए निर्देश

बार में 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं का प्रवेश वर्जित

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्वल प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में बाल अधिकार और सुरक्षा से संबंधित बैठक समाहरणालय में बुधवार को आयोजित की गयी। बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उज्वल प्रकाश तिवारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद को जिले में संचालित सभी बार एवं रेस्टोरेंट में नियमानुसार 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले युवाओं का प्रवेश



समाहरणालय सभागार में बैठक करते अधिकारी।

वर्जित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस संबंध में किये गए कार्रवाई का प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराये जाने को कहा गया। इसके अलावा तिवारी ने जिले में मादक पदार्थों के सेवन से युवाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया। तिवारी ने बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को जिले में संचालित विद्यालयों,

महाविद्यालयों में सहायक आयुक्त उत्पाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नशे के प्रकोप से युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित जागरूकता अभियान चलाये जाने को कहा। साथ ही जिले में संचालित गैर-सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को आचरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का भी निर्देश दिया गया। तिवारी ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिले में संचालित बालगृह के लिए रांची के सिविल सर्जन को बच्चों के

आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्राचार करने का भी निर्देश दिया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिले में दिव्यांग बालिकाओं के लिए एक बालगृह के संचालन के लिए आवश्यक अग्रतर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही श्रम अधीक्षक को जिले में बालश्रम से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की विगत एक वर्ष पूर्व से विवरणी उपलब्ध कराये जाने तथा दिये जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया।

डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों के सपने अधूरे : विजय शंकर

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने डोमिसाइल आंदोलन में आज से 22 वर्ष पूर्व शहीद हुए वीर संतोष कुंज, कैलाश कुजूर, विनय तिमगा के शहादत अवसर श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि डोमिसाइल आंदोलन वीर शहीदों के सपने 22 वर्षों के बाद भी अधूरे हैं 'माय माटी की बात करने वाले हेमंत सरकार उन सपनों को पूरा करें अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह भी कहा कि यह आक्रोश का विषय है, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकारों ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज की



माल्यार्पण करते लोग।

भावनाओं का सम्मान देने का काम नहीं किया और आज तक जो राज्य निर्माण के समय झारखंड के झारखंडी समाज द्वारा जो देखे गए सपने थे। की अलुवा दिशूम् अबुआ राज यानी अपना प्रदेश अपना राज्य में झारखंड के दलित आदिवासी मूलवासी समाज का उत्थान होगा।

ई-गवर्नेस के लिए प्रज्ञा केंद्र से जुड़ेगे जिले के सभी राशन डीलर

आम जनता को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्देश

● जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी के जरिए परियोजनाओं की हुई गहन समीक्षा

PHOTON NEWS JSR:

उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी ने बुधवार को जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी के माध्यम से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की। इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक झारसेवा आईडी के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए निष्पादन करने का निर्देश दिया, साथ ही वैसे प्रज्ञा केंद्र संचालक है जो पंचायत भवन में बैठते हैं लेकिन उनके पास झारसेवा आईडी नहीं है, उनको चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। जिले के राशन डीलरों को



बैठक करते उपायुक्त अनन्य मिताल

● फोटोन न्यूज

सीएससी सेंटर में पंजीकरण के संबंध में सीएससी मैनेजर द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक 600 से अधिक राशन डीलरों को सीएससी सेंटर में पंजीकृत कर दिया गया है, जिस पर उपायुक्त ने शेष राशन डीलरों को एक माह के अंदर सीएससी में पंजीकृत करने का निर्देश दिया। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए

उपायुक्त द्वारा सीएससी मैनेजर को प्रत्येक माह 60 प्रज्ञा केंद्र का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। ई-ऑफिस परियोजना की समीक्षा में उपायुक्त द्वारा एक माह के अंदर ई-ऑफिस का क्रियान्वयन जिला अंतर्गत सभी कार्यालयों में करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने झारनेट परियोजना के समीक्षा में जिला स्तर से सभी प्रखंड कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग टेस्ट करते हुए

प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया, इसके साथ ही झारनेट में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए विभागीय पत्राचार करने, जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी द्वारा सभी कार्यालयों व आम जनता को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपविभागाध्यक्ष आयुक्त मनीष कुमार, अपर उपायुक्त योगेंद्र प्रसाद, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी महेंद्र कुमार, डीटीओ सह नज्जारा उप समाहर्ता धर्मेन्द्र, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी किशोर प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडीएआई, सीएससी मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, झारनेट के कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव प्रारंभ

आज भी कर्मचारी कर सकेंगे मतदान

JAMSHEDPUR : रेल कर्मचारियों की को-ऑपरेटिव सोसाइटी रेलवे अर्बन बैंक का चुनाव के लिए बुधवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान रेल कर्मचारियों ने किया। टाटानगर में कर्मशियल, कार्मिक, इंजीनियरिंग, लोको शेड, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग और रनिंग विभाग में वोट डाले गए। बुधवार को कर्मशियल विभाग में 82 वोट, इंजीनियरिंग विभाग में 250 वोट, कार्मिक विभाग में 84 वोट, लोको शेड में 375 वोट, सिग्नल में 55 वोट, रनिंग विभाग में 350 कर्मचारियों ने वोट डाल दिया है। गुरुवार को भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्मचारी मतदान कर सकेंगे। इसके बाद मतगणना होगी। चुनाव में रेलवे में



मतदान करते कर्मचारी

यूनियन, रेलवे मेंस कांग्रेस, एससीएसटी एसोसिएशन, एलआरएसए ने अपने डेलीगेट को उतारा है। एशिया की सबसे बड़ी रेलवे को-ऑपरेटिव सोसाइटी में लगभग 1.52 लाख शेयर होल्डर हैं। इस बैंक पर रेलवे मेंस यूनियन समर्थित डायरेक्टरों का नियंत्रण है। अंतिम बार चुनाव 2010 में हुआ था, उसके बाद 2015 से चुनाव लंबित था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

गणेश सिंह घाघीडीह से गिरिडीह व नीरज दुबे दुमका जेल शिफ्ट

JAMSHEDPUR : कुख्यात गणेश सिंह को सुरक्षा कारणों से जमशेदपुर के घाघीडीह जेल से गिरिडीह जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को गणेश सिंह को कड़ी सुरक्षा के साथ शिफ्ट करने के लिए ले जाया गया था। गणेश सिंह के साथ गिरफ्तार अमन सिंह और रवि जयसवाल अभी जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं है। वहीं गणेश सिंह के विरोधी नीरज दुबे को दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। टकराव की आशंका को देखते हुए नीरज दुबे को दुमका जेल भेज दिया गया है। नीरज दुबे के बाद कई अन्य कैदियों को शिफ्ट करने की योजना है। फिलहाल गणेश सिंह को शिफ्ट किए जाने के बाद घाघीडीह जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

यूनिफाई विजार्ड सीजन-2 के विजेता बने सत्यम सिद्धार्थ

PHOTON NEWS JSR:

साकची स्थित करीम सिटी कॉलेज के भौतिक विभाग में बुधवार को विभाग के वार्षिक कार्यक्रम ह्यूनिफाई विजार्ड्स सीजन-2 का आयोजन किया गया। कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोलहान विश्वविद्यालय के भौतिक विभागाध्यक्ष डॉ. एसके गौराई थे। आरंभ में प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज तथा कार्यक्रम कन्वेनर कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ. मोतुफैल अहमद ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. मो. तुफैल अहमद द्वारा रचित यूनिटी सॉन्ग के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। डॉ. मो. तुफैल अहमद ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह एक प्रयत्नशील प्रतियोगिता है,

बागबेड़ा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग



JAMSHEDPUR : बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहरगुट्ट स्थित नारायणी इंटरप्राइजेज कन्फेक्शनरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से बुधवार को आग लग गई। आगजनी की इस घटना में दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक शिवम गुप्ता रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर आग लगी हुई है। उन्होंने पाया कि दुकान के पिछले हिस्से में तार की जाली पड़ी है। देर ना करते हुए उन्होंने आगजनी की घटना की सूचना स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगभग 13 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

बंगाल से नहीं आ रहा आलू, 40 के पार पहुंचा भाव, ग्राहक परेशान

मनमानी कीमत पर बंगाल के व्यापारी बेच रहे थे पूरे देश के व्यापारियों को आलू

PHOTON NEWS JSR : पूरे कोलहान ही नहीं देश के कई राज्यों में आलू की सप्लाई बंगाल से होती है, लेकिन हाल के दिनों में बंगाल सरकार ने आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है। तीन-चार माह से बंगाल के कारोबारी मनमानी कीमत पर पूरे देश में बिक्री कर रहे हैं, जबकि बंगाल के कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा हुआ है। इसकी वजह से दो-तीन महीने से आलू के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो आलू 40 से 43 रुपये प्रति किलो खुदरा बाजार में बिकने लगा है। इससे पहले कभी भी आलू का भाव 40 से 43 रुपये प्रति किलो तक नहीं पहुंचा था। बताया जाता है कि बंगाल के थोक व्यापारियों की इस मनमानी पर नकेल कसने के लिए ही बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है। वे ममता सरकार के फैसले के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। तीन दिनों से चल रही हड़ताल के



परसुडीह मंडी में पहुंचा आलू का ट्रक

ज्यादा खिंचने पर पूरे देश में आलू की किल्लत होने लगेगी। कहा जा रहा है कि इसे देखते हुए जल्द ही आलू व्यापारियों के साथ ममता सरकार वार्ता कर बीच का रास्ता निकालेगी। थोक भाव में बिक रहा 3600 रुपये किंवटल आलू : मंडी के थोक व्यापारी विद्याशंकर गुप्ता ने बताया कि मंडी में आलू 3400 से 3600 रुपये प्रति किंवटल के हिसाब से बिक रहा है। आलू के

मंडी में एक-दो ट्रक ही पहुंच रहे चोरी छिपे आलू

बंगाल सरकार ने आलू के निर्यात पर रोक लगाने के बाद परसुडीह मंडी में जहां प्रतिदिन 10-12 ट्रक आलू के आते थे, अब चोरी-छिपे मात्र एक-दो ट्रक ही मंडी पहुंच रहे हैं। इस मंडी से पूरे कोलहान में आलू की सप्लाई होती है। अगर जल्द ही आलू की सप्लाई बंगाल से शुरू नहीं हुई तो आलू की कीमतों में और इजाफा होने की उम्मीद है।

ट्रक आने कम हो गए हैं, जिसके कारण आलू की कमी परसुडीह मंडी में हो गई है। 3600 रुपये में भी मांग के हिसाब से आलू नहीं मिल रहा है। मंडी में आलू समाप्त होने लगा है। ऐसा लगता है कि आलू का भाव दीपावली तक ऐसा ही रहेगा। नया आलू आने के बाद कीमतों में कमी आएगी। पूरे देश में यूपी और बंगाल से ही आलू की सप्लाई की जाती है।

समावर सार

लायंस क्लब जमशेदपुर की अध्यक्ष बनीं शशि गाडिया

JAMSHEDPUR : लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर का 66वां इंस्टालेशन संरमनी बुधवार को बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड क्लब में हुआ, जिसमें नई अध्यक्ष शशि गाडिया, सेक्रेटरी माहुरूख मेहता, कोषाध्यक्ष नमिता भट्टाचार्यी तथा क्लब एडमिनिस्ट्रेटर शिवशंकर गाडिया को शपथ दिलाई गई। नई कमेटी में संरक्षक डॉ. आरएन शर्मा, एके श्रीवास्तव, आनंद चौधरी, सहदेव प्रसाद व एमडी केडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉ. बीके सिंह, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट मुकेश मित्तल, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट मदन केशरी, ज्वॉइंट सेक्रेटरी पवन कुमार शाह, ज्वॉइंट ट्रेजरेजर अरुण कुमार विश्वास, टेमर डॉ. निवेदिता कर, टेल डिविक्टर तरुण कुमार अदक, चेरपर्सन क्लब लीडरशिप विनोता शाह, बंरशिप स्तोता दासगुप्ता, क्लब मार्केटिंग कन्सुल्टेशन प्रवी घोष, क्लब सर्विस केटी मालेगुमवाला, एलसीआईएफ अशोक खंडेलवाल, डायरेक्टर दिलीप गांधी, जेपी सिंह, एनके अग्रवाल, केटी भट्टेया, उमेश काउंटिया, टीएस विश्वास, उमेश्वर शर्मा, एसपी श्रीवास्तव, डॉ. रघुमोनी आदि शामिल हैं।



शशि गाडिया को शपथ दिलाई गई।

परसुडीह में बंद घर से साढ़े चार लाख की चोरी

JAMSHEDPUR : परसुडीह थाना अंतर्गत हलुदबनी जूही रोड निवासी लखी दास के बंद घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में चोरों ने लाखों के जेवरत और घर के सामान चुरा ले गए। पिछले कई वर्षों से बेटी की शादी के बाद महिला लखी दास अपने घर को बंद कर अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के समय महिला अपने घर आकर साफ सफाई कर वापस अपने रिश्तेदार के घर चली गईं। आज जब महिला दोबारा अपने घर आई तो पाया कि घर के पीछे दरवाजा टूटा हुआ था। घर के अंदर अलमारी में रखे लगभग साढ़े 4 लाख के जेवरत और घर में रखे महंगे बर्तन गायब हैं। भुक्तभोगी महिला ने बताया कि दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी मिलते ही परसुडीह पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा पूछे जाने पर जांच करने की बात कही।



लखी दास अपने घर को बंद कर अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी।

ओडिशा के राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल

JAMSHEDPUR : ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से भाजपा नेता दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुरी के गुरुद्वारा आरती साहब के प्रतिनिधिमंडल ने भुवनेश्वर स्थित राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पुरी के प्रसिद्ध गुरुद्वारा आरती साहब में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसे राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।



राज्यपाल से भाजपा नेता दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुरी के गुरुद्वारा आरती साहब के प्रतिनिधिमंडल ने भुवनेश्वर स्थित राजभवन में मुलाकात की।

पेज 01 का शेष

जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की बहाली...

शिक्षक नियुक्ति में भी धांधली का आरोप : इससे पूर्व यूनिवर्सिटी में शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई। पिछले जनवरी माह में बायोटेक एवं बीपीएड के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था। उनमें से मात्र एक शिक्षिका को बायोटेक विभाग में नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के रिजल्ट के संबंध में वोकेशनल विभाग की को-ऑर्डिनेटर (सीवीसी) और यूनिवर्सिटी के कुलसचिव के पास कोई जवाब नहीं आया। कुलसचिव व सीवीसी कर रहे फेंका-फेंकी : कुलसचिव इस संबंध में सीवीसी से पूछने को कहते हैं, तो सीवीसी कुलसचिव से बात करने को कहती हैं। इसके अलावा बीबीए, बीसीए विभागों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए कॉल करने को लेकर भी कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए थे। कुछ अभ्यर्थियों को बीबीए अथवा बीसीए में शिक्षक पद के लिए पीएचडी की अनिवार्यता बताया गयी थी। बावजूद कुछ लोगों को पीएचडी अथवा नए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को छोड़ पीजी डिग्री पर ही साक्षात्कार में कॉल किया गया था। जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव नहीं दे रहे जवाब : इस संबंध में जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव से उनके मोबाइल पर संपर्क कर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा वाट्सएप संदेश के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई। बावजूद कोई जवाब नहीं आया। अजीब-ओ-गरीब हालात : यूनिवर्सिटी में हालात यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल सीवीसी डॉ. अनूपपूर्ण झा को यह पता नहीं है कि साक्षात्कार का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है या नहीं। केवल बुधवार को यह छुट्टी पर थी। इससे पहले सोमवार व मंगलवार को यूनिवर्सिटी में उरजिट था। उसी दौरान नियुक्ति हुई है। बावजूद उन्हें यह पता नहीं है कि रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है या नहीं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी आने पर ही देख कर वह इस संबंध में कुछ बता सकती हैं।

शहर में प्राइवेट स्कूलों के समय में हो सकता बदलाव

टाटा स्टील यूआईएसएल के एमडी ने की प्राचार्यों के साथ बैठक

PHOTON NEWS JSR:

टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने बुधवार को शहर के विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इसमें बच्चों के स्कूल जाने और छुट्टी के समय यातायात व भीड़भाड़ (जाम) की समस्या के समाधान पर विचार-मंथन किया गया। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक ने स्कूल के समय सड़कों पर यातायात एवं भीड़भाड़ पर चर्चा करते हुए और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का महत्व बताया। उन्होंने संभावित समाधान के रूप में स्कूल खुलने के समय में बदलाव करने का सुझाव दिया।



बैठक करते टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक

● फोटोन न्यूज

इसके साथ ही प्राचार्यों से अनुरोध किया कि यातायात व भीड़भाड़ कम करने में मदद करने के लिए इस बदलाव को लागू करने पर विचार करें। इस पर प्राचार्यों ने सहमति जताई। बताया गया है कि यह बैठक सामुदायिक सहभागिता और सतत विकास के प्रति टाटा स्टील यूआईएसएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अधिक कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार

भविष्य बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में काम कर रही है। बैठक में टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ नेतृत्व टीम और टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के प्रमुख की भागीदारी थी। वहीं बैठक में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, लोयोला स्कूल, जेएच तारापोर स्कूल, डीबीएमएस स्कूल, बेल्डोह चर्च स्कूल समेत अन्य स्कूलों के प्राचार्य शामिल थे।

अनुशासन ही छात्र को अपने जीवन में सफल बनाता है : डॉ अमर सिंह



डॉ अमर सिंह

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में बुधवार को इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के छात्र-छात्राओं के लिए परिचय सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अमर सिंह ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे हर हाल में अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें, तभी अपने जीवन में सफल हो पायेंगे।

आयकर दिवस : सीएच एरिया में कर्मियों ने किया वॉकथॉन



कार्यक्रम में शामिल आयकर अधिकारी व कर्मचारी

● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तत्वाधान में बुधवार को आयकर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीएच एरिया स्थित मुख्य कार्यालय में आयकर विभाग की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें चित्रकला, स्लोगन लेखन, शतरंज तथा कैरम प्रतियोगिता शामिल थी। कार्यक्रमों की शुरुआत वॉकथॉन से हुई, जिसका नेतृत्व प्रधान

आयकर आयुक्त शिशिर धामीजा एवं अपर आयकर आयुक्त एन हेमलता ने किया। इसमें आयकर अधिकारी (मुख्यालय) बिजय कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिशिर धामीजा ने आयकर विभाग के अब तक के उत्तरोत्तर विकास की जानकारी दी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कृत एवं मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया।

सरायकेला-खरसावां के कुचाई प्रखंड में लगा जनता दरबार, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए की गई अपील

सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों की सुनी गई समस्या, मिला समाधान

PHOTON NEWS SARAIKELA: नक्सल प्रभावित कुचाई प्रखंड अंतर्गत गोमियाडीह पंचायत के काडेरंगों गांव में बुधवार को खरसावां के विधायक दशरथ गंगारई एवं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की उपस्थिति में जनता दरबार लगाया गया। सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। जनता दरबार में सर्वप्रथम जोरबाड़ी गांव निवासी निरयन हेंरजन ने गांव एवं आसपास के टोला को विकास योजनाओं से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में मोबाइल नेटवर्क, विद्यालय भवन निर्माण तथा एक टोला से दूसरे टोला को जोड़ने के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। वहीं बलराम महतो ने काडेरंगों

गांव में नवनिर्मित विद्यालय भवन कार्य में तेजी लाने तथा क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने की बात कही। इसके अलावा गांव एवं आसपास के टोला में पेयजल सुविधा सुदृढ़ करने एवं स्थानीय भाषा में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर योजना से जोड़ने की बात कही। इस दौरान सेजघाटी निवासी सुखलाल मुंडा ने स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने, सप्ताह में एक या दो दिन स्वास्थ्य जांच शिविर लगा कर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर दवा वितरण करने की बात कही। इसके अलावा वर्ल्ड सदर्न (महिला) ने गांव में जलमीनार बनाकर हर घर को नल-जल योजना से जोड़ने, महिला समूह की दीर्घियों की बैठक के लिए चबूतरा बनाने की बात



कार्यक्रम में मौजूद विधायक व उपायुक्त

● फोटोन न्यूज

कही। इस दौरान दशरथ उरांव ने आसपास के टोला को विकास योजना से जोड़ने तथा अभियान चलाकर वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने तथा गांव एवं आसपास के टोला के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त क्षेत्र में आवसीय विद्यालय निर्माण करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त जनता दरबार में किसान

के बीच सहायक उपकरणों के वितरण, मौसम को देखते हुए किसानों के बीच बीज वितरण, सीएससी के माध्यम से आय, जति, आवसीय एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान करने समेत अन्य विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी मामलों का नियमानुसार निश्चित समयवाधि में निराकरण करने तथा क्षेत्र के सभी

योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभाग के वरीय पदाधिकारियों को समस्याओं के निराकरण करने तथा प्रत्येक माह जिला स्तर से वरीय पदाधिकारी द्वारा कार्य प्रगति की जांच करने की बात कही। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय भवन के साथ आंगनवाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य के लिए जल्द ही कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति यथाशीघ्र की जाएगी, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। उपायुक्त ने

जिला शिक्षा अधीक्षक को अभियान चलाकर ड्रॉपआउट बच्चों को चिह्नित कर विद्यालय से जोड़ने की बात कही। उपायुक्त ने कहा कि आसपास के गांव-टोला को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त द्वारा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने तथा आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की गई। इस मौके पर विधायक दशरथ गंगारई ने कहा कि खरसावां एवं कुचाई प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गांव-टोला को प्राथमिकता के आधार पर विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

BRIEF NEWS

राजद सुप्रीमो लालू यादव एम्स से हुए डिस्चार्ज

PATNA : राजद सुप्रीमो लालू यादव एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज हो गए। दिल्ली पहुंचते ही एम्स में उनके भती होने की सूचना के बाद बिहार में उनके समर्थकों में बेचैनी देखी।

राजद नेताओं का यह कहना था कि रूटीन जांच के लिए एम्स में भर्ती हुए हैं। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद राजद नेता भोला यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि राजद सुप्रीमो पूरी तरह से ठीक हैं। अस्पताल में कुछ ही घंटे के लिए थे। उसके बाद अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य-लाभ ले रहे हैं।

रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव

BHAGALPUR : नवगछिया एस्पपी पूरा ज्ञान ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9:00 बजे सूचना मिली कि झंडापुर थाना अंतर्गत 17 नंबर केबिन के 100 मीटर पूर्व दिशा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला है। उक्त सूचना के सत्यापन के क्रम में आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं।

बढ़ रहे डेंगू के मरीज, दो दिनों में मिले 20 संक्रमित

PATNA : बिहार में बरसात जिनत बीमारी डेंगू का कहर बढ़ने लगा है। पिछले दो दिनों के अंदर बिहार में डेंगू के 20 और मरीज मिले हैं। अकेले पटना में ही 13 मरीज मिले हैं। एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मंगलवार को डेंगू के 14 सैंपल की जांच में चार संक्रमित मिले हैं। विभागाध्यक्ष डॉ प्रो संजय कुमार ने बताया कि बीते पांच दिनों से लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। बीते दो दिनों में पटना जिले में 13 मरीज पाये गये हैं। इन्में तीन मरीज रविवार व छह सोमवार को पाये गये। संबंधित कुछ मरीजों की फुटि पीएमसीएच व एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग व निजी पैथोलॉजी सेंटर में जांच के बाद हुई है। डॉ प्रो संजय कुमार ने बताया कि सोमवार को नालंदा की 40 वर्षीया महिला व 40 वर्षीय पुरुष और पटना सदर के 65 वर्षीय पुरुष की जांच रिपोर्ट ऑप्टिजि मिली। संक्रमित मरीज आपीडी में इलाज कराने आये थे। गया कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप, सिपाही घायल

गया : गया जिले की शेरघाटी कोर्ट कैम्प में फायरिंग से हड़कंप मच गया। जिसमें पेशी पर आरोपी फोटो खान घायल हो गया। इस गोलीकांड में एक सिपाही भी घायल हुआ है। हालांकि कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए एक हमलावर को दबोच लिया है। घटनास्थल से तीन खोजे मिले हैं। जिसके बाद एकएसल टीम को बुलाया गया। शेरघाटी के एस्पपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फोटो खान अनवर खान मर्डर केस के अभियुक्त हैं। जिसकी आज पेशी थी। इस दौरान उसी की हत्या के मकसद से हमलावरों ने फायरिंग की। जिसमें दो गोली फोटो खान को लगी, और एक गोली सिपाही को लगी।

मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम नीतीश विपक्ष के नेता पर भड़के, कहा- राजद के शासनकाल में महिलाओं को बोलने का भी नहीं था अधिकार

AGENCY PATNA :

बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। नीतीश ने मसौदा से राजद विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहा कि महिला हों, समझती नहीं हो, इन लोगों (राजद) ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया।

नीतीश कुमार ने कहा कि अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो...आज महिला होकर बोल रही हो। राजद के समय कभी किसी महिला को बोलने की इजाजत थी। कभी वो लोग (राजद) किसी महिला को आगे बढ़ाए थे। साल 2005 के बाद हमने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज बोल रही हो फालतू। इसलिए कह रहे हैं सुनो। इसके पहले विधानसभा में नए आरक्षण

मुजफ्फरपुर में महिला पर गोलीबारी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार

AGENCY MUZAFFARPUR :

मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र में बीते दिनों संस्कृति वर्मा नामक एक महिला पर बाईक सवार बदमाशों के द्वारा हुई गोलीबारी मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्देदन कर दिया गया। घटना में शामिल चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया है कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना क्षेत्र में ऑफिस जाने के दौरान संस्कृति वर्मा नामक एक महिला पर अपराधियों द्वारा तकरौबन आधा दर्जन राउंड गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसमें संस्कृति वर्मा नामक महिला को तीन गोली लगी थी जिससे वह बुरी तरह जखमी हो गई थी जिसके बाद ईलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था वही मामले की

बोलेरो ने चाचा-भतीजा को रौंदा, दोनों की मौत



घटना में घतियवस्त वाहन।

AGENCY AURANGABAD : नेशनल हाइवे 19 पर बारण था क्षेत्र के बरडीह मोड़ के पास बुधवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बुलेट सवार दो युवकों को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में नवीनगर प्रखंड के एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के अंकोरहा गांव निवासी नरेश यादव का 19 वर्षीय पुत्र चिट्टू उर्फ ?यंकरा कुमार और गोरख यादव का 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार शामिल हैं। दोनों मृतक चाचा-भतीजा हैं।

केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब क्यों नहीं दिए थे विशेष राज्य का दर्जा : नीतीश कुमार



बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा सत्र में बुधवार को तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के दौरान कांग्रेस और राजद के विधायकों ने हाय-हाय के नारे लगाए। इसके बाद सीएम नीतीश भड़क गए और कहा कि इतने दिन से आंदोलन कर रहे थे। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं दिए थे विशेष दर्जा और आज हंगामा कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि 'अरे ई सब चीजया तो हमही न किए हैं जी... और आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था आप लोगों के पास... अरे सही चीज बोलिए... कांग्रेस ही आप बोलिए सही... कोई बतवा माने थे?

दिनदहाड़े फिलफार्ट कर्मी से आठ लाख की लूट

E.CHAMPARAN : जिले में बेखौफ अपराधियों ने बुधवार को दिनदहाड़े फिलफार्ट कर्मी को गोली मार कर 8 लाख रुपए लूट लिये। घायल कर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के देवरहा बाबा मठ के समीप का बताया जा रहा है। कर्मी अजय कुमार फिलफार्ट कर्मी से मेन ब्रांच में रुपया जमा करने जा रहा था इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गये। दिनदहाड़े हुई लूट की घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। जखमी युवक फिनो बैंक सीएसपी संचालक भी बताया जा रहा है। जो लखौरा में सीएसपी संचालन करता है। एएसपी सदर शिखर चौधरी ने बताया पुलिस इस मामले की कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी देते एसएसपी राकेश कुमार।

गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित, टाऊन एसपी भानु प्रताप सिंह और डीआइयू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जिसपर टीम लगातार काम की। गठित विशेष टीम ने तकनीकी सूचना के आधार पर मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी की पहचान अभिनव कुमार, शिव सेख, कृष्ण कुमार और तुषार के रूप में हुई है। मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला संस्कृति वर्मा के पति आर्यन कुमार से रूपा शर्मा नामक एक महिला के कुछ विशेष प्रेम संबंध थे जिसको लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वही गिरफ्तार चार अपराधियों में से दो अपराधी अविनीत और तुषार नामक युवक रूपा शर्मा के एक फोर व्हीलर एजेंसी में कार्यरत है जबकि कृष्णा कुमार शूटर है और शिव सेख के द्वारा पूरे मामले को लेकर शूटर को पैसा उपलब्ध कराया गया था।

गैंगरेप के बाद जिस लड़की का हो गया था मर्डर, वह जिंदा बरामद

AGENCY E.CHAMPARAN :

जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सबको चौंकाने पर विवश कर दिया है। जिस लड़की को गैंगरेप के बाद हत्या करने की बात सामने आई थी और बीते 22 जून को पुलिस द्वारा उस लड़की का शव मनरेगा पार्क के समीप से बरामद भी कर लिया था। अब वह लड़की जिंदा बरामद कर ली गई है। बताते चले गैंगरेप और हत्या के इस मामले में जिले में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। परिजन भी उसे मृत मानते हुए अंतिम संस्कार कर चुके थे। अब वह लड़की जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र से जिंदा बरामद हुई है। बरामद लड़की ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं, जो चौंकाने वाले हैं। मुफ्फरसिल अज्ञात कर्मचारी कुमार के अनुसार लड़की ने



अपने बयान में कहा कि 16 जून की रात को वह अपने प्रेमी नौशाद राजा से मिलने के लिए घर से निकली थी। इसी बीच रास्ते में कुछ लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। वहां से जान बचाकर भागी और ग्रामीण मुन्ना पासवान के घर पहुंच गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरन एक गाड़ी में मुझे बैठा लिया और किसी दूसरे स्थान पर ले गया। इसके बाद उसने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर बारी-बारी से मेरा

रेप किया। इसके बाद मुझे छतौनी चौक पर छोड़ दिया। जहां मैं डर के कारण अपने घर ना जाकर अपने एक रिश्तेदार के घर तुरकौलिया जा रही थी, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं होने के कारण मैं रास्ता भटक गई। भटकते-भटकते मैं संजय सहनी की पत्नी से मिली और वह मुझे अपने घर ले गई। जहां मैंने उसे सारी आपबीती बताई लेकिन अपने घर में नहीं बताने की विनती भी की। इस बीच कुछ दिन बीतने पर मुझे घर की याद आने लगी तब मैंने अपने पिता को फोन किया। लेकिन, उन्होंने रॉना नंबर बताकर फोन काट दिया। इस मामले में लड़की की मां के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में तीन नामजद और दो अज्ञात पर आरोप लगाया गया था।

सौतेली मां ने दो बच्चों को कुएं में फेंका, एक की मौत

PATNA : बिहटा थाना क्षेत्र के सदौसोपुर गांव में दो सौतेली मां ने दो बच्चों को कुएं में फेंक दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। मृत बच्चे की पहचान अरुण ठाकुर के बेटे अर्णव कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान शमी कुमारी के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया गया है। घायल बच्चे का इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बिहटा थाना क्षेत्र के सदौसोपुर गांव निवासी अरुण ठाकुर ने दो शायी की थी। पहली पत्नी रजनी देवी से उसके दो बच्चे हैं। दो साल पहले अरुण ठाकुर ने शारदा देवी से दूसरी शायी रचा ली।

पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

AGENCY PATNA :

बिहार पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का दौर जारी है। मंगलवार को पुलिस ने जहां चौकीदार-दफादार संघ और होमगार्ड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। तो वहीं, बुधवार को पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर पुलिस ने बिहार कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं ने निकाला था विधानसभा मार्च: मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को बिहार कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा मार्च निकल गया था, जिसे पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहे पर रोकने का प्रयास किया। इस बीच नहीं रुकने पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्का हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई कार्यकर्ता समेत

विधानसभा से एंटी पेपर लीक कानून ध्वनिमत से हुआ पारित



AGENCY PATNA :

बिहार की नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राजग सरकार ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से एंटी-पेपर लीक कानून पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा और सदन से वाक आउट कर गया। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने बिहार विधानसभा में राज्य सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 पेश किया। इस बीच विपक्ष वाक आउट कर गया। इसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर विधेयक पास हो गया। नये कानून में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। इस

कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे। अब पेपर लीक की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। नए कानून के तहत परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ तक का जुमाना हो सकता है। यह कानून व्यापक है, जो छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों सहित सभी संबंधित पक्षों पर लागू होता है। सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कानून बना है। नीट की परीक्षा में जो धोखाड़ी हुई है उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी नियम बनाया है, जो पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। सदन के बाहर आकर राजद विधायक रेखा कुमारी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला।

वार्ड पार्षद ने अवैध रूप से घर पर किया कब्जा, भूख हड़ताल पर बैठा पीड़ित परिवार

AGENCY BHAGALPUR :

जन कल्याण करने वाले जनप्रतिनिधि अब गरीबों के घर को कब्जे में करने लगे हैं। मामला भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत परबती पासी लेन नगर -निगम वार्ड नंबर तेरह का है। जहां भागलपुर नगर -निगम वार्ड नंबर तेरह के दबंग वार्ड पार्षद रंजीत मंडल ने मोती लाल साह के घर को कब्जे में ले लिया है। घर को खाली कराने को लेकर मकान मालिक मोती लाल साह ने प्रशासन से लेकर वार्ड पार्षद से कई बार विनती आरजू किया लेकिन घर खाली नहीं हो सका। अंत में मोती लाल साह के सभी परिवार बुधवार को घर के समीप आपने नन्दे मुन्हे बच्चों के साथ पढ़ाई के उग्र में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे गये हैं। भूख



बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा पीड़ित परिवार।

हड़ताल पर बैठे मोती लाल साह एवं उनके परिजन ने कहा कि भागलपुर नगर -निगम के लब्बू पासी लेन परबती के वार्ड पार्षद रंजीत कुमार को मकान तीन वर्ष के लिए किराये पर दिया गया था। समय पूरा होने से कई वर्ष बीत गए लेकिन मकान खाली नहीं कर रहा है। मकान खाली कराने को बोलने पर जान

मराने की धमकी एवं छः लाख रुपए की मांग करता है। अन्यथा जान मराने की धमकी देता है। दबंग वार्ड पार्षद की रवैया को देख मोती लाल साह के सभी परिजन डर से सहमे हुए हैं। उल्लेखनीय हो कि पूर्व में वार्ड पार्षद रंजीत कुमार महिला के साथ मारपीट एवं शराब मामले में जेल जा चुका है।

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के घर पहुंची बंगाल पुलिस

AGENCY SIWAN :

बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आयी है। सिवान में पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर बिहार पुलिस ने छापेमारी की है। सैकड़ों की संख्या में पहुंची पुलिस किसी को ढूँढ रही थी। हालांकि, शहाबुद्दीन के घर पर छापेमारी की खबर सुनकर उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गयी। समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में डकैती की वारदात हुई थी। इस घटना में बंगाल पुलिस को लिंक मिला। इस लीड को तलाशते हुए पुलिस ने बिहार पहुंची। इस संबंध में बंगाल पुलिस ने सिवान पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद टीम ने नगर थाना स्थित नई किला



इलाके में ओसामा शहाब के घर तलाशी ली। पुलिस सूत्रों की मानें तो मामला डकैती से जुड़ा हुआ है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर सैकड़ों की तदाद में पुलिस पहुंची थी। नगर थाना इलाके के नया किया स्थित उनके वारदात हुई थी। इस घटना में बंगाल पुलिस को लिंक मिला। इस लीड को तलाशते हुए पुलिस ने बिहार पहुंची। इस संबंध में बंगाल पुलिस ने सिवान पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद टीम ने नगर थाना स्थित नई किला मौजूद थी।

दो दशक बाद अब जाकर केंद्र सरकार पूरा करेगी सपना

कोसी नदी का होगा मेची से मिलन

AGENCY PATNA :

केंद्र सरकार ने आखिरकार कोसी-मेची लिंक परियोजना के लिए बजटिय प्रावधान कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से राशि मिलने के बाद अब इस परियोजना के जमीन पर उतरने की उम्मीद पूरी होती दिख रही है। मिथिला के इलाके में बाढ़ की समस्या के हल को लेकर इस परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर बिहार को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोसी-मेची लिंक परियोजना को हरी झंडी देने का ऐलान किया। इसके तहत कोसी नदी के पानी को मेची नदी तक ले जाया जाएगा। इससे मिथिला क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात मिलने की



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करते संजय झा।

उम्मीद की जा रही है। कोसी-मेची नदी जोड़ योजना के लिए बिहार बीते दो दशक से प्रयास किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही नदी को जोड़ने की लेकर नीतिगत निर्णय हुआ था। पटना में कुछ महीने पहले हुई पूर्वी क्षेत्रीय

क्या है कोसी-मेची लिंक परियोजना

कोसी नदी हर वर्ष मिथिला में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बाढ़ पर नियंत्रण देने के लिए नदी जोड़ परियोजना तैयार करने पर नीतिगत फैसला हुआ। बिहार में कोसी नदी और मेची नदी को जोड़ने का फैसला हुआ। मेची नदी महानन्दा की सहायक नदी है। ऐसे में कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को महानन्दा बेसिन तक ले जाया जा सकेगा और कोसी में पानी का दबाव भी कम होगा। कोसी मेची लिंक परियोजना के तहत 76 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया है। कोसी-मेची लिंक बनने से सुपौल, सहरसा, महुबनी, खगड़िया और कटिहार जिले को बाढ़ से राहत मिलेगी। इसके साथ ही 2.14 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

थी। इसके बाद दोनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास गए और उसी दिन शाम में हुई एक बैठक में उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया गया। कमिटी के सदस्यों ने बिहार आकर बाढ़ की स्थिति का अवलोकन किया और इसके समाधान पर चर्चा की।

परिषद की बैठक में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा नेकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने कोसी में हाई डैम बनाने और कोसी-मेची का मामला उठाया था। संजय झा ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की

Hasina must learn from Rajapaksa ouster

POLITICAL street violence in Bangladesh has been a recurring event for nearly three decades. But even by these standards, the killing of over 100 people, many of them student protesters shot dead by the police, is a new low in the five-decade history of the country. With this, Prime Minister Sheikh Hasina, who in January won a fourth consecutive term in office in an election boycotted by the Opposition, on a barely 40 per cent turnout, has entered politically hazardous territory. The Bangladesh Supreme Court's order slashing the quota of 30 per cent of government jobs for descendants of freedom fighters, and bringing down all reservation to a total of 7 per cent from the previous 56 per cent, may not end the Bangladesh leader's troubles.

The protests against the quota for freedom fighters are just one manifestation of deep anger against a Prime Minister who was once hailed as a model of democracy and secularism in the Islamic world, but who has since consolidated her hold on power in the manner of an authoritarian — describing the Opposition as 'terrorists', jailing its leaders, lashing out at critics as 'traitors' to the nation, muzzling the media, and being accused by rights activists of using enforced disappearances and extra-judicial killings to silence them. Hasina, who has survived more than one assassination attempt, would like the world to see her as the last woman standing between Islamism and her fragile country. But even her supporters are finding it hard to justify her methods.

Writing in these columns recently on the 75th anniversary of the Awami League, the party of Bangladesh's liberation that Hasina has led for four decades, Mahfuz Anam, editor of The Daily Star, described how it had lost its way badly. The Awami League, he wrote, "today is its own judge and jury. It is a typical example of a political party living in its own bubble. And since it has monopoly control on all the levers of power, the bubble, as fragile as it is, can also be dangerous. This is so because the reality presented by the bubble can form the basis of decisions that can fatally harm us all." Hasina has been in office continuously since January 2009. Her landslide victory in the December 2008 elections came after a tumultuous period for the country and was hailed internationally as a win for progressive forces in Bangladesh. But a mutiny by officers of the Bangladesh Rifles in February 2009, a month after she was sworn in, shook her government.


Hasina survived that crisis, with Delhi holding her hand. In the 15 years since then, Bangladesh's economic turnaround and its solid progress on human development indicators — the country is set to graduate from the Least Developed Category in 2026 — won her much international admiration, at the same time as her increasingly authoritarian political style drew criticism and made her unpopular at home. The 2012-13 fast-tracking of a process to punish Pakistan's Islamist collaborators during the 1971 Liberation War, which led to the execution of six Jamaat-e-Islami leaders and one of the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) after a quick trial and conviction by a special court, fuelled polarisation in the polity. The Jamaat-e-Islami was banned, and the BNP has since boycotted two elections — in 2013 and 2023 — over its unmet demand for a caretaker government to oversee the electoral process. The party contested the 2018 election, but its leader, Khaleda Zia, was convicted and jailed, and not allowed to run. The Hasina government's counter-terrorism response after a wave of Islamist-linked killings of secular activists culminating in the 2016 terrorist attack on a cafe in Dhaka, is seen to have been effective. But Hasina's one-party rule and the government's single-minded focus on wiping out the political opposition have led to a vacuum in the polity that is being filled by a yearning in large sections of the public for Islamic governance. This is especially so as Bangladesh's economic dream run has now run out of gas, literally. Russia's Ukraine war slowed down the country's post-pandemic recovery, with a direct impact on the citizens. Food inflation is high. An acute unemployment crisis has worsened people's lives. And a young population is demanding political accountability from an unresponsive government. This is why the quota in jobs brought students out on the streets, resulting in last week's bloodshed.

Nepal's political churn a test for its ties with India

India could do more than any other country for transit and connectivity with Nepal.

WITH a new Prime Minister at the helm, Nepal has had its 30th change in the head of government since the 1990 Jana Andolan — which instituted constitutional monarchy — and the 15th since the 2006 Loktantra Andolan, which abolished the monarchy and established a parliamentary republic. In the last nine years, the government has changed eight times, with KP Sharma Oli of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist), Pushpa Kamal Dahal of the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) and Sher Bahadur Deuba of the Nepali Congress successively becoming the PM. Ideology has nothing to do with political changes in Nepal. Oli has become the PM for the fourth time, with a comfortable majority. He won the floor test in the 275-member Pratinidhi Sabha (House of Representatives) on Sunday with more than two-thirds majority, with 188 votes in favour of the Vote of Confidence motion tabled by him.

Former Ambassador to India and retired Kathmandu University professor Lok Raj Baral recently described Nepali politics as being "full of absurdities" and termed the frequent changes in its government 'pantomime' or 'nautanki'. In his first tenure, Oli was annoyed with India. He made several anti-Indian moves. For example, he claimed that Thori (near Birgunj) was the real Ayodhya — the birthplace of Lord Ram, an avatar of Lord Vishnu. Some news outlets reported that Nepal's archaeological department was considering excavation in the region. He further claimed that 'Singhadeva Jayate', and not 'Satyameva Jayate', appeared to be India's national motto. He got Nepal's map and Constitution changed to extend its boundary with India north-westward and not northward, enlarging the disputed area manifold and making a resolution difficult. The general perception that Oli is pro-China is incorrect. A nationalist politician, he would want Nepal's stability and development. Having close ties with India would be a prerequisite for that. While India has no issue with Nepal maintaining good relations with China, what makes the India-Nepal relationship unique are the ties of geography, history and culture and the open border between the two countries. This could be further transformed through initiatives on electricity trade, climate change cooperation and connectivity that have already been



agreed upon. For the last two years, the Nepal Electricity Authority has been selling surplus electricity produced at its hydropower plants in Kaligandaki, Trishuli and Devighat to India through the Indian Energy Exchange at a remunerative price of over Rs 6 per unit. The India-Nepal Joint Vision Statement on Power Sector Cooperation adopted in April 2022 envisages three activities: the joint development of power sector projects in Nepal, building cross-border transmission infrastructure and bi-directional power trade. But some hostile elements in Nepal are opposed to it. It is interesting to recall that when Chandra Shekhar, arguably the most Nepal-friendly Indian PM, visited Kathmandu in February 1991, he spoke expansively about the potential of India-Nepal cooperation in the hydropower sector at a press conference, after which he asked a young Nepali journalist, Vijay Kumar, to stay and have tea with him. The first thing PM Shekhar said was, "Don't believe a word of what I just said for public consumption." Seeing that Vijay was perplexed, the then Indian premier recounted his upbringing in a hut in a Ballia village in eastern Uttar Pradesh that had no electricity. His father had told him then that India would soon be free: "Tab hamara mitra desh Nepal unnati ke path par hoga aur hamen bijli dega. Ab hamare baal safed ho gaye par Nepal se hamare ghar bijli nahin ayi. Nepali apne ko andhere mein rakhege aur hamein bhi andhere mein rahne denge!"

This anecdote illustrates how things have changed. While India has supplied electricity to Nepal over the past few decades, the power trade between the two nations is beginning to reverse its course. Nepal has started producing electricity, and India buys only the surplus, whose export will redress Nepal's trade balance and improve its public finance.

Another way for Nepal to balance its trade would be to stop importing petroleum products from India and import them from elsewhere.

India is the sole supplier of oil to Nepal. PM Narendra Modi and Oli had jointly inaugurated South Asia's first cross-border petroleum products pipeline from Motihari in India to Amlekhgunj in Nepal in September 2019. This was built by the Indian Oil Corporation ahead of schedule to ensure regular and affordable petroleum supplies to Nepal.

Not only is India now importing Nepalese electricity, but it is also on the verge of agreeing to the wheeling of Nepalese electricity to Bangladesh, the first such trilateral arrangement among any three countries in South Asia. India could do more than any other country for transit and connectivity with Nepal. Under the Belt and Road Initiative, China had promised the construction of a Trans-Himalayan Multi-dimensional Connectivity Network, but there is no evidence of it on the ground. India has offered to effectively end Nepal's landlocked situation by building a rail link to Kathmandu and providing Nepal access to the Bay of Bengal through waterways. The Final Location Survey report of the Raxaul-Kathmandu rail link has been with the Government of Nepal since June last year.

China's 2016 Transit and Transport Agreement with Nepal gives the latter access to several Chinese ports. But in the past eight years, the routes have remained unutilised because of long and uneconomic distances. Nepal's third-country trade continues through the Indian ports of Kolkata and Visakhapatnam. Should Nepal require ports on India's western coastline, such as Kandla, for its exports to the Gulf, West Asia, Africa or Europe, India would facilitate it. Under an India-Bangladesh arrangement, the two countries have agreed to give Nepal transit facilities through Kakarvitta-Fulbari (Phulbari)-Banglabandha to the ports of Chittagong and Mongla. The frequent change of leadership in Nepal leads to endemic political instability. India is slowly learning to shield its bilateral relationship from the vicissitudes of Nepal's domestic politics. With their cultural closeness, Indians and Nepalese are guilty of a degree of complacency towards one another. They should, instead, invest more in each other.

Reaching out to RSS

BJP lifts ban in a bid to placate Sangh

THE BJP-led Centre's decision to lift the ban on government employees from participating in activities of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) is an attempt by the ruling party to reach out to the Hindutva organisation and convey the impression that everything is hunky-dory within the Sangh Parivar. Asserting that the move would strengthen the country's democratic system, the RSS has accused erstwhile (read Congress) governments of furthering their political interests by imposing the ban. Attacking the Centre, the Congress has said that the new order would test the neutrality of public servants.

Relations between the BJP and the RSS are going through a rough patch, particularly after the saffron party fell short of a majority in the Lok Sabha. The BJP's below-par performance in the parliamentary elections has given ample fodder to the Sangh top brass to fire no-holds-barred salvos. RSS leader Indresh Kumar said Lord Ram had stopped an



'arrogant' party that claimed to be 'Ram Bhakt' from attaining a majority, while Sangh mouthpiece Organiser

observed that the electoral outcome was a 'reality check' for overconfident BJP workers. Last week, RSS chief Mohan Bhagwat apparently alluded to Prime Minister Narendra Modi when he talked about the human ambition to become a superman and a god. Moreover, Sangh leaders have sent out a message that their organisation will not play second fiddle to the BJP.

Despite on allies for the first time in a decade, the BJP seems keen to make concessions for the sake of staying in power. With the RSS centenary coming up next year, the ruling party is expected to go all out to appease Bhagwat and Co. Lifting of the ban will help in ironing out some of the differences, even as the onus is on the government to address concerns and allay fears over the contentious decision's impact on governance.

Education is the antidote to deras and babas

Babas demand unquestioning faith and politicians prefer to keep the masses ignorant — neither wants or encourages the spirit of enquiry.

I had just joined the police service and was posted as the Kapurthala SSP in 1971. I happened to visit my village over a weekend, expecting a lazy morning and day. However, I was woken up well before sunrise by an old family helper, who informed me that one Jeetu Jatt from a neighbouring village wanted to see me. I recalled that Jeetu was a minor-league soothsayer who helped people locate their lost/stolen cattle. Jeetu seemed visibly embarrassed as he told me that a pair of his oxen had been stolen from his haveli. I asked him to report it to the police; he very hesitatingly told me that it would be bad for his business as a soothsayer if he sought the help of the police. Anyway, his cattle were found and his reputation remained intact. Now, it is generally believed that such activities remain confined to the poor and uneducated — let me dispel you of any such delusion. After many years and many experiences in the police service, let me cut to the chase. This is a story of our country and its various soothsayers, shamans, babas and how, from being harmless petty manipulators, they rise to control the very levers of power. I was posted in Delhi as the head of a premier force at the turn of the century. After a couple of days, a retired senior officer came to me and virtually ordered me to accompany him to a very well-known baba. I told him that I knew the gentleman and that I would not go to him. One had observed his progress from the tehsil level to the district and onto the state capital, where he was known to be a small-timer, peddling falsehoods to novices (most locals knew of him and in Punjabi style had given him a comical moniker). His move to Delhi was a masterstroke and he literally struck gold by being this novel, bold godman. My former boss was taken aback by my refusal and further impressed on me that my presence had been especially requested by the man himself. I

stuck to my guns, but let me briefly describe first-hand accounts from these satsangs of the baba (our agencies kept us abreast). Virtually a galaxy of VIPs, including secretaries to the Government of India and their wives, Union ministers and other top-ranking persons were in attendance. What were they doing? Some of these otherwise snooty memsahibs were massaging the master's feet, and others were doing 'champi' on his head, etc. One had to blink one's eyes and pinch oneself to believe that this was happening in real time. These godmen exercised influence in national-level policymaking, both economic and political. There were godmen who operated many rungs higher than the Delhi master and their bejewelled fingers wrought many a miracle — to name a few, Dhirendra Brahmachari, Maharishi Mahesh Yogi and Chandraswami come to mind. Moving back again to the present, the landscape is dotted with deras and babas of various hues and sizes. There are ordinary village-level babas, besides those at the city, state, regional and national levels. Most of them are part miracle men, part politicians, part businessmen, part real estate holders and, above all, great influence peddlers. The poor go to them for minor daily needs, the rich to get richer, the politicians to get votes and thus power. Trust me, the bigger the dera, the greater the vote bank and bigger the number of politicians in attendance at election time. Please do not think I'm exaggerating. State intelligence departments have carried out a census of these deras and their approximate following and financial holdings. This



information is used to woo them or blackmail them. Security details are attached to them. And depending on the scale, the weightage of the baba goes up or down. Today, they have started going a step further by fighting elections themselves — the politician himself is threatened. Remember the disco baba and the havoc he caused in Haryana? He appeared to alternate between the jail and his ashrams as per his whims and fancies. Then there are the various babas confined on charges of rape and murder, for whom the jail is also an ashram.

Lest the reader get the mistaken belief that this is happening only now in India, let me disabuse you of that. There are many such cases in the history of the world where superstition, fear and poverty have been manipulated by godmen to pursue their goals. They went by many names — shamans to the Mongols,

witch doctors to the Red Indians, Druids in England, soothsayers in ancient Greece — but the evil they sowed has been the same through history. In Russia, Rasputin cast an evil shadow on the rule of the Tzars. When one Rasputin or godman reaches the top, other minions mushroom across the land. In the early part of the 20th century, the Sikhs had to launch a full-fledged movement to free their shrines from the mahants, who had been propped up by the British and had converted the historic gurdwaras into personal fiefdoms shorn of their religious and historic presence. And so the great game continues — charlatans, godmen, politicians pitted against the common man. The men of science and an even temperament are in a hopeless minority. Such is the source of these

babas that the poor especially are held by them in a vice-like grip of ignorance and hope. The only remedy for most of our problems, including this one, is education of the highest quality made available to all. Education removes all these cobwebs and develops a scientific temperament. Above all, it teaches us to question everything and everyone in order to come to rational answers, and that is why these babas demand unquestioning faith and politicians prefer to keep the masses ignorant — neither wants or encourages the spirit of enquiry. In conclusion, I can only turn back to Rabindranath Tagore and his timeless wisdom: "Where the mind is without fear... where knowledge is free... into that heaven of freedom, my father, let my country awake."

Gold, silver price : Precious metals record hike on MCX

NEW DELHI. Both gold and silver prices recorded a hike on the Multi Commodity Exchange (MCX) on Wednesday, July 24, 2024. Gold futures, maturing on August 5, 2024, stood at Rs 68,865 per 10 grams on the MCX, after recording a jump of Rs 355 or 0.52 per cent. The previous close was recorded at Rs 68,510. Meanwhile, silver futures, maturing on September 5, 2024, witnessed a marginal hike of Rs 287 or 0.34 per cent and were retailing at Rs 85,206 per kg on the MCX against the previous close of Rs 84,919.

GOLD, SILVER PRICES IN MAJOR CITIES

The gold and silver prices in India depend on several factors, including the value of the rupee against the dollar. Global demand also plays a key role in determining the trends observed in the rate of precious metals.

GOLD, SILVER PRICES IN INTERNATIONAL MARKET

Gold prices inched higher on Wednesday, with investors awaiting U.S. economic data that could influence the Federal Reserve's rate-cut timeline, news agency Reuters reported. According to the latest metal report, spot gold rose 0.3 per cent to \$2,416.62 per ounce by 0402 GMT, while, U.S. gold futures gained 0.4 per cent to \$2,417.10. Among other precious metals, spot silver gained 0.2 per cent to \$29.28 per ounce.

Another 'jumla': P Chidambaram on job creation promises in Budget 2024

New Delhi. Congress's Rajya Sabha MP and former Union Finance Minister P Chidambaram has questioned the employment-linked incentives (ELIs) announced by the government in Budget 2024, saying the projected figures of beneficiaries are "highly exaggerated".

Speaking to India Today TV, Chidambaram said he doesn't believe that the government will be able to create two crore jobs in a year as mentioned in the Budget. "I don't believe the numbers. 210 lakh, 30 lakh, 50 lakh, adding up to 290 lakh. I think this is another jumla. Like they said that they will create two crore jobs a year. I don't believe this," he said. In her Budget speech, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced three employment-linked schemes. One of the schemes is aimed at first-time employees registered with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and offers up to Rs 15,000. The Finance Minister said the scheme would support young professionals earning up to Rs 1 lakh per month and would benefit 210 lakh youths.

Chidambaram said it would be important to see how many industrial units, enterprises, and businesses are brought under the scheme. "I want to see the actual recruitment, and only then I'll believe these numbers. These are highly exaggerated numbers. Suddenly, how do they hit upon 290 lakh jobs?" he asked. The former Finance Minister further said the government, in this Budget, finally acknowledged that unemployment and inflation were points of concern, something he said were mentioned prominently in the Congress's election manifesto.

"We have been saying that for the last several years. Unemployment is the number one challenge and inflation is number two. I am glad the government has finally, although belatedly, acknowledged it after they learnt a lesson in the (Lok Sabha) election," he said.

Electronics sector gets biggest PLI allocation

NEW DELHI. In the Budget, the finance minister has allocated Rs 12,493.02 crore for the Production Linked Incentive (PLI) scheme across different



sectors for this financial year.

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has received the largest share, with Rs 6,200 crore earmarked for electronics manufacturing. For large-scale electronics manufacturing, the government has earmarked Rs 6,125 crore, while the incentive for IT Hardware is Rs 75 crore. Over and above, for the development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India, Rs 6,903 crore has been allocated in this Budget. Another significant chunk has gone to the automobile sector. The scheme for the automobiles and its components has been increased to Rs 3,500 crore, a 624% jump from Rs 484 crore in the revised estimates of 2023-24. The reason being, as per the economic survey released on July 22, 2024, the PLI scheme for automobiles and auto components has attracted investments of Rs 14,043 crore till March 2024, accounting for 20% of the total committed amount of Rs 67,690 crore.

The PLI scheme was introduced to promote domestic manufacturing and has achieved success in mobile manufacturing. India's mobile phone production has grown from 5.8 crore units in 2014-15 to 33 crore units in 2023-24, with exports increasing to nearly 5 crore units. Subsequently, the government has expanded the PLI scheme to 14 sectors, including telecommunications, white goods, textiles, medical devices, automobiles, specialty steel, food products, solar PV modules, advanced chemistry cell batteries, drones, and drug manufacturing industries.

This year, the government has allocated Rs 2,143 crore for PLI in the pharmaceutical industry, Rs 57 crore for drones and drone components, and Rs 298.02 crore for ACs and LED lights. However, no allocation has been made for PLI scheme to promote telecom manufacturing.

Mobile manufacturing

Mobile phone exports have risen significantly, from Rs 1,556 crore in 2014-15 to Rs 1,28,982 crore in 2023-24, while imports have decreased from Rs 48,609 crore to Rs 7,665 crore during the period

Education loans up via e-vouchers, UGC budget cut

The Budget introduced significant financial support for higher education loans while imposing a substantial cut on the University Grants Commission (UGC) budget by over 60%.

NEW DELHI. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced an allocation of Rs 1.20 lakh crore for education in the Union Budget for 2024-25. The salient point of the proposals is that loans up to Rs 10 lakh for higher education in domestic institutions will

be facilitated through e-vouchers, directly benefiting one lakh students annually with an interest subvention of 3%. The Budget introduced significant financial support for higher education loans while imposing a substantial cut on the University Grants Commission (UGC) budget by over 60%.

Despite significant budgetary reductions in some areas, the overall allocation for the Ministry of Education has been pegged at over Rs 1.20 lakh crore, down from the revised estimate of Rs 1.29 lakh crore in the previous financial year.

The UGC funding has been dramatically reduced from the previous year's revised estimate of Rs 6,409 crore to Rs 2,500 crore, marking a 60.99% cut. The budget for Indian Institutes of Management (IIMs) too has been cut for the second consecutive year, dropping from Rs 331 crore to Rs 212 crore. Indian Institutes of



Technology (IITs) have also experienced a marginal budget cut from Rs 10,384.21 crore to Rs 10,324.50 crore.

The budget for Central universities has seen a significant increase by over 28%, rising to Rs 15,472 crore from the previous revised estimate of Rs

12,000.08 crore. Additionally, the budget for school education has increased by over Rs 535 crore, benefiting Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, NCERT, PM Shri schools, and state governments.

UGC chairman M. Jagadesh Kumar said an allocation of Rs 47,619 crore to higher education marked an 8% increase over last year's budget. He said the UGC budget includes three components: UGC, Central universities, and deemed universities. From 2024-25, funding for colleges affiliated with Central universities will shift from UGC to Central universities budget line.

Significant financial aid Budget introduced significant financial support for higher education loans while imposing a substantial cut on the University Grants Commission (UGC) budget by over 60%.

Explained: How will Budget 2024 impact your mutual fund investments

Budget 2024: Radhika Gupta, MD and CEO of Edelweiss

Mutual Fund discussed in detail the changes in mutual fund taxation following the Union Budget 2024.

New Delhi. The Union Budget 2024 has introduced significant changes to the taxation of mutual funds, aiming to simplify the tax structure and provide clarity for investors. These changes impact various types of mutual funds differently, altering how they are taxed in both the short and long term.

Radhika Gupta, MD & CEO of Edelweiss Mutual Fund, discussed the overall announcements in the budget on social media platform X and also shared a video explaining the changes in mutual fund taxation following the Union Budget 2024.

She explained that before the Budget, mutual funds were subject to varying

tax categories, including long-term and short-term capital gains, marginal tax rates, and indexation



benefits. With this Budget, all of this gets simplified and the concept of indexation goes away," Gupta noted.

How will Budget 2024 impact your mutual fund investments? Under the new tax regime, there are now three main categories for mutual fund taxation. The first category includes equity mutual funds with more than 65% equity holdings. "They are taxed as capital assets—20% in the short term and 12.5% in the long term, with long term being anything held for more than one year," Gupta said.

The second category consists of funds

holding more than 65% in debt securities. These are taxed at the marginal rate without any distinction between short-term and long-term investments. Gupta pointed out that this category remains unchanged from the previous year.

The third category encompasses funds that do not fit into the first two categories, such as gold index funds, gold ETFs, funds of funds investing in equity, international funds, and conservative or hybrid funds.

Gupta said, "These have a taxation in short term at marginal rate and long term is 12.5% where long term means more than two years." Discussing the impact of these changes, Gupta said the benefits for long-term investors in the third category. "If you are a long-term investor, instead of attracting the marginal rate of taxation, they now attract 12.5% capital gains tax over a two-year long term," she said. Overall, she indicated that the Budget 2024 simplifies the tax structure for mutual funds and provides significant benefits for long-term investors in specific categories.

Experts welcome budget relief for cancer patients, urge higher health spending

NEW DELHI. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a major relief for cancer patients in the country in the Union Budget 2014-25. The budget proposed to exempt three crucial cancer treatment medicines that are needed for patients in India from customs duty. What are these drugs used for specifically? Trastuzumab

Deruxtecan: This is an antibody-drug conjugate used primarily to treat HER2-positive breast cancer that has spread to other parts of the body (metastatic). It is also being studied for use in other types of cancer, such as gastric cancer.

Osimertinib: This is a targeted therapy used to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) with specific mutations in the EGFR gene. It is particularly effective against cancers that have developed resistance to earlier generations of EGFR inhibitors.

Durvalumab: This is an immunotherapy drug that works by blocking the PD-L1 protein, helping the immune system to attack cancer cells. It is used to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) and urothelial carcinoma (bladder cancer).

How commonly are these drugs

prescribed?

Trastuzumab Deruxtecan: This is commonly prescribed for patients with advanced HER2-positive breast cancer who have not responded to other treatments. It is relatively new but has shown significant promise in clinical trials.

Osimertinib: This is widely prescribed for patients with EGFR-mutated non-small cell lung cancer. It is often used as a first-line treatment and is also prescribed for patients whose cancer has progressed despite other EGFR inhibitors.

ICICI Bank, Dabur, HUL and more: These stocks in focus after Budget 2024

NEW DELHI. The Union Budget 2024 announcements have put the spotlight on several sectors and stocks, with most experts calling it a balanced plan. Sujan Hajra, Chief Economist & Executive Director at Anand Rathi Shares and Stock Brokers, said the budget reflects a strategic "balancing act, meticulously maintaining fiscal health while vigorously pursuing economic growth." "Infrastructure, manufacturing and housing—critical engines driving the nation's long-term economic strength, are key focus areas in this budget. Parallely, the government has, aiming to boost consumption, crafted specific initiatives especially for the weaker economic sections and lower- and middle-income classes, through a sharper focus on agriculture, employment incentives, welfare programs and tailored income-tax relief," Hajra said. "As such, we believe this budget sets the stage for the next five years of the Modi 3.0 government with structural growth in focus and would be positive for consumption- and infrastructure-oriented sectors," he added.

Anand Rathi Shares and Stock Brokers also

highlighted some stocks that are poised to benefit from the strategic measures announced in the budget.

The brokerage firm's key picks include Astral, Crompton Greaves Consumer, Dabur, Finolex Cables, Hero MotoCorp, HG Infra, HUL, ICICI Bank, M&M, NCC, Neogen Chemicals, PNC Infra, SBI, Sagar Cements, Senco, Siemens, Shilchar Technologies, Spandana Sphoorty, Sumitomo Chemicals, Suzlon, and Ultratech. "We believe equity markets will credit this government's adeptness in navigating the complex landscape of economic governance amid fiscal prudence. We believe this budget will benefit industries such as agro-chemicals, automobiles, capital goods, cement, infrastructure, FMCG, metals, retail and renewable energy," Hajra said.

"The IT sector might grapple with implications of changes to the share-buyback policy, whereas the financial sector largely remains neutral. Further, we believe the change in the indexation norm for real estate may not impact end-user demand," he added. Disclaimer: The



views, opinions, recommendations, and suggestions expressed by experts/brokerages in this article are their own and do not reflect the views of the India Today Group. It is advisable to consult a qualified broker or financial advisor before making any actual investment or trading choices.) How will Budget 2024 impact stock markets? In addition, Hajra highlighted that the budget maintains fiscal prudence by reducing the fiscal deficit target by 20 basis points to 4.9% of FY25e GDP and

retaining a target of 4.5% for FY26. He noted that a big focus of the budget is on sectors like agriculture, education, and employment generation to drive economic advancement and inclusivity.

The anticipated boost in consumer spending, especially at the grassroots level, is expected to catalyse a sustained recovery. Income-tax relief measures for the new tax regime are designed to further stimulate consumption demand, particularly for lower-income groups.

"The budget prioritises sectors such as agriculture, education and employment generation, broadening the base for economic advancement and ensuring inclusivity in growth trajectories. This strategy is anticipated to catalyse a sustained recovery in consumer spending, especially at the grassroots level. Further, the income-tax relief measures announced for the new tax regime could boost consumption demand, especially at the bottom of the pyramid," Sujan Hajra said.



New UK Foreign Secretary arrives in Delhi on 1st visit, free trade deal in focus

UK Foreign Secretary David Lammy has arrived in Delhi for a two-day visit to India. His visit marks the first high-level discussion between the two nations after Keir Starmer's Labour government came to power in the UK general elections.

New Delhi. UK Foreign Secretary David Lammy has arrived in New Delhi for a two-day visit to India in the first high-level discussion between the two sides after Keir Starmer's Labour government came to power in the general elections. "Warm welcome to UK Foreign Secretary David Lammy as he arrives in New Delhi on his first official visit since the assumption of office. The visit will strengthen the Comprehensive Strategic Partnership between the two countries and will make the 'living bridge' between India and the UK stronger," the External Affairs Ministry tweeted. During David Lammy's visit, he will highlight the importance of the new partnership with India with a focus on economic, domestic and global security. "I am travelling to India in my first month as Foreign Secretary because resetting our relationship with the Global South is a key part of how this government will reconnect Britain for our security and prosperity at home," David Lammy said. The long-pending India-UK Free Trade Agreement (FTA) will feature in the talks between David



Lammy and External Affairs Minister S Jaishankar. "India is the emerging superpower of the 21st century, the largest country in the world with 1.4 billion people and one of the fastest growing economies in the world. Our Free Trade Agreement negotiations are the floor, not the ceiling of our ambitions to unlock our shared potential and deliver growth, from Bengaluru to

Birmingham. We have shared interests in the green transition, new technologies, economic security and global security," David Lammy said. The UK Foreign Secretary will also hold high level meetings with climate and business leaders. It has been learnt that David Lammy will galvanise support for accelerated action on the climate crisis with India as an indispensable partner -

driving forward the clean energy transition and creating opportunities for British and Indian businesses.

He will discuss partnering on Indian-led global initiatives to build clean power access, climate resilience in the global south and small island states. The UK Foreign Secretary is also expected to underscore the importance of the 'Living Bridge' between the UK and India. It represents the 1.7 million people with Indian heritage that have made their home in the UK and made an exceptional contribution to British life. David Lammy will meet business leaders to highlight how the UK and India are working together on shared ambitions such as cutting-edge science to encourage innovation, boost trade, and improve the livelihoods of working people in both countries. After the India trip, the UK Foreign Secretary will travel to the ASEAN Foreign Ministers' meeting in Laos where he will advance UK economic partnerships and unveil new cooperation on climate and health.

Kanwar Yatra pilgrim dies as speeding bike hits sleeping devotees in UP

New Delhi. One Kanwar Yatra pilgrim was killed and another injured in a hit-and-run accident in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar on Tuesday night, police said. According to police, a speeding two-wheeler hit the devotees while a group of pilgrims were sleeping on the roadside. "It was found that 3 Kanwar devotees who were carrying Kanwar were tired and lay down on the side of the road and a Kanwar devotee was sitting there.



A speeding bike hit the sleeping devotee and went away," police officer Ramashish Yadav told news agency ANI. In this accident, one pilgrim died and one was injured and is undergoing treatment in a hospital, he added.

Sacred Spaces: Understanding the 5 Roles of Indian Temples in the Spiritual Landscape

New Delhi: For ages, temples have formed an integral part of India's cultural and spiritual landscape. These hallowed locations fulfill several functions in the spiritual and social lives of millions of people, making them more than merely sites of worship. These are the five main functions that temples fulfill in the spiritual life of India.

Fundamentally, temples are locations where believers congregate to worship and ask for divine favors. They offer a hallowed setting for rites, prayers, and celebrations that deepen the devotee's relationship with God. While providing comfort and hope to those who attend, the everyday rites and festivals observed in temples contribute to the care for.

Guardians of Customs and Culture

An essential role of temples is to preserve India's rich



cultural legacy. They conserve art, music, dancing, architecture, and old customs that have been handed down through the ages. India's artistic ability and historical history are attested to by the elaborate designs, artwork, and paintings discovered in its temples. Temples are frequently used as locations for cultural gatherings and performances, which preserves old artistic forms.

Spiritual Learning Centers

In India, there are a lot of temples connected to spiritual learning and education. They offer spiritual assistance to seekers by hosting talks, seminars, and lectures on religious literature, philosophy, and ethics. To mold the moral and spiritual principles of education and mold the next generations of educators, temples also manage educational institutions.

Social Services and Community Hubs

Temples frequently serve as communal hubs, bringing individuals together for events both social and altruistic. They offer locations for social events like festivals and celebrations, which promote a feeling of togetherness and community. Numerous temples engage in charitable endeavors, providing the underprivileged with shelter, food, and medical attention to uphold the values of compassion and service.

What Is LBSNAA? 10 Things To Know About IAS Training That Drives India's Bureaucracy

New Delhi. The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) is once again at the center of attention, this time due to its newly implemented social media guidelines. These rules come in the wake of a controversy involving trainee IAS officer Pooja Khedkar, who recently found herself under scrutiny for her social media activities. Located in the picturesque town of Mussoorie, Uttarakhand, LBSNAA is where the future bureaucrats of India are groomed. As debates rage on about privacy, transparency, and professional conduct, it is crucial to delve into the significance of LBSNAA and the extensive training it provides to India's top civil servants. Here are ten essential aspects of LBSNAA and the

IAS training process that underline its pivotal role in shaping India's bureaucracy.

Established in 1959, LBSNAA is named after Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India, and serves as the premier training institution for Indian Administrative Service (IAS) officers. The academy's mission is to train civil servants in public policy and administration, instilling values of integrity, commitment, and service.

Purpose and Mission

LBSNAA's primary objective is to equip IAS officers with the necessary skills and knowledge to manage public administration effectively. The academy focuses on fostering a deep understanding of governance, policy implementation, and public

service ethics. It aims to produce officers who are not only efficient administrators but also empathetic leaders committed to public welfare.

Training Phases

The training at LBSNAA is divided into two rigorous phases designed to prepare officers comprehensively for their roles: Phase I: This foundational phase introduces officers to public administration, law, economics, and Indian polity.

Through a blend of classroom sessions, field visits, and hands-on training, officers are taught to navigate the complexities of governance and public service. This phase emphasizes the development of core administrative skills and a thorough understanding of the country's socio-political landscape.

NEET-UG Row: BJP, Opposition Spar After SC Verdict; NTA Faces Heat

New Delhi: The Supreme Court's verdict about the NEET-UG paper leak has put an end to the controversy officially but the opposition is not ready to accept the verdict in its current form. The opposition said that the National Testing Agency needs to be revamped as it is not capable of conducting national-level exams in the current format. The Supreme Court, in its verdict yesterday, concluded that the paper leak took place at local level in Bihar while maintaining absence of any systemic breach. The apex court rejected the demand for holding a re-examination for over 24 lakhs students who took the NEET-UG 2024 exam.

Former Congress leader and Rajya Sabha MP Kapil Sibal said that the National Testing Agency (NTA) needs to be completely revamped, adding that the government cannot hold an All-India exam of this magnitude

under the present system. "The Supreme Court has asked the IIT Delhi to look into the matter as to how to deal with these issues (paper leaks)... Why in every examination during this government there are leaks in every exam? The question is who is involved and for whose benefit are the leaks happening? Who are the people without merit who got jobs? The National Testing Agency (NTA) needs to be completely revamped. You cannot hold an all-India exam of this magnitude under a present NTA system," Sibal said. He said, "The government is for everyone and it should think for every section of our youth who is sitting for this exam." Shiv Sena-UBT Rajya Sabha MP Sanjay Raut said, "Supreme Court should know what is going on in the country. Supreme Court was one last ray of hope. If that ray too is not

showing us any direction, then where will we go? Is there a pressure on the government?" VCK MP Thol. Thirumavalavan termed the verdict shocking. "Supreme Court direction is not in favour of the students who are affected by this NEET scam... The victims have to go for appeal. That is the only solution," he said.

What Government Said

BJP leader and Union Education Minister Dharmendra Pradhan said that the government is committed towards a 'zero-error' exam. Dharmendra Pradhan said, "For us, zero tolerance of any kind of breach is our priority when it comes to exams for students, be it for higher education or jobs. So, the Modi government has brought into effect a strict law like the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act... Presenting our side before the Supreme.

"Will March To Delhi," Say Farmers After Meeting Rahul Gandhi At Parliament

Sources said the farmer leaders have asked Rahul Gandhi to introduce a private member's bill to fulfill a long-standing demand - recalculation of MSP.

New Delhi: Farmers pushing the government to revamp the MSP, or minimum support price, policy met Congress MP Rahul Gandhi inside the Parliament complex Wednesday morning. Mr Gandhi, who is also Leader of the Opposition in the Lok Sabha, met a delegation of 12 farmer leaders from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh,

Telangana, Tamil Nadu, and Karnataka. Senior Congress leaders KC Venugopal and Deepender Singh Hooda were also part of the meeting, as were MPs Amarinder Singh Raja Warring and Sukhjinder Singh Randhawa. There was confusion before the meeting as the farmers were not allowed inside. "We invited them... but they are not allowing them inside Parliament. They are farmers, maybe this is why..." Mr Gandhi said. "...you will have to ask the Prime Minister the reason for this..."

Rahul Gandhi will raise the voice of farmers inside Parliament..." Mr Warring told NDTV after the meeting. On reports the farmers are planning another march on Delhi, he said, "They have all rights to come to Delhi and protest (and) if a private member's bill is required then we will bring that too." One of the farmers, Jagjit Singh Dallewal, said the government had failed, so far, to fulfill assurances. "Swaminathan report implementation is a must. We will

continue march towards Delhi..." he told. Earlier, sources said the farmers spoke to Mr Gandhi about issues in their respective states, and also asked him to



introduce a private member's bill to fulfill long-standing demands - to revise MSP and ensure legal backing. These demands have been at the core of their protests since it began in 2020. Farmer unions across the country want the MSP - a purchase guarantee set by the government to protect agriculturists from

steep fall in crop prices - to be based on the Swaminathan Commission's C2+50 formula, which factors in cost of capital and land rent when calculating support prices.

The government, however, is reluctant to drop the existing A2+FL+50 per cent method. Apart from changing the formula, farmers also want legal backing for this purchase price; at present the government is not obliged to buy, for example, 10 per cent of a paddy crop at the floor price. In 2020/21 lakhs of farmers gathered to march on Delhi, prompting the government to set up war-zone like defence measures around the national capital. The 'farmer army' - complete with tractors and supplies for a months-long siege - was held to makeshift camps blocking key roads into the city. The furore over the protests also made international headlines and sparked bitter fights between the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition, led by Mr Gandhi's Congress.

Heavy rain lashes Delhi-NCR, more showers predicted

New Delhi. Heavy rainfall lashed Delhi-NCR areas on Wednesday morning, bringing much-needed relief from the humid weather. The India Meteorological Department (IMD) has issued a 'yellow alert' for the national capital and its adjoining areas, indicating the possibility of more showers later in the day. A yellow alert means heavy rainfall between 6 cm and 11 cm. The maximum and minimum temperatures will likely hover around 36 and 27 degrees Celsius.

The forecast shared by IMD in a post X (formerly Twitter) includes regions such as Delhi University, Civil Lines, Kashmiri Gate, Seelampur, Shahadra, Vivek Vihar, Patel Nagar, Red Fort, Preet Vihar, Budha Jayanti Park, and President House. The Air Quality Index (AQI) of the national capital was recorded in the "good" category with a reading of 40, according to the Central Pollution Control



Board. The weather body has also predicted heavy rainfall over parts of Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra on July 24. The northwestern state of Rajasthan is likely to experience hot, humid weather until tomorrow. In northeastern India, "fairly widespread light to moderate rainfall" is predicted over the next five days, the IMD said in its weather bulletin.

A 'yellow' warning of heavy rains at isolated places has also been issued throughout Himachal Pradesh for the next four days till July 27. Meanwhile, in Chandigarh and Punjab, the IMD has predicted "above normal" temperatures with high humidity in the next two days. The weather bulletin predicted light to moderate rainfall in other parts of north and south Odisha over the next two days, with similar conditions expected on July 25 and 26. The weather body has also predicted heavy to very heavy rainfall in the North Goa and South Goa districts from July 24 to 25.

NEWS BOX

Donald Trump to meet Israeli Prime Minister Netanyahu in Florida on Friday

Washington Republican presidential candidate and former US president Donald Trump on Tuesday said he would meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at his Mar-a-Lago residence in Florida on Friday.

Netanyahu is in Washington and will on Wednesday address a joint session of the US Congress, the only foreign leader to do so for a fourth time. He would also meet with President Joe Biden at the White House on Thursday. "At the request of Bibi Netanyahu, we have switched this meeting to Friday, July 26 at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida!" Trump said. "Looking forward to welcoming Bibi Netanyahu at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, on Thursday (July 25)", he had earlier said in a post of Truth Social, a social media platform.

"During my first term, we had Peace and Stability in the Region, even signing the historic Abraham Accords - And we will have it again", he said. This would be his first meeting with a foreign head of state after becoming the Republican presidential nominee on July 18. On July 19, he had a phone call with the Ukrainian president. "Just as I have said in discussions with President Zelensky and other World Leaders in recent weeks, my PEACE THROUGH STRENGTH Agenda will demonstrate to the World that these horrible, deadly Wars, and violent Conflicts must end. Millions are dying, and Kamala Harris is in no way capable of stopping it", Trump said.

Kamala Harris's presidential campaign raises \$100 million in 'historic haul'

Washington Vice President Kamala Harris, who is now the presumptive presidential nominee of the Democratic Party, has raised an unprecedented \$100 million from more than 1.1 million people for her presidential campaign, reflecting the groundswell of support in her favour. "Team Harris raised more than \$100 million between Sunday afternoon and Monday evening, now boasting more than 1.1 million unique donors since Sunday, with 62 per cent of them being first-time donors. This haul reflects money raised across the campaign, Democratic National Committee, and joint fundraising committees", the Harris Campaign said on Tuesday afternoon. "On top of that, Team Harris raised \$81 million in its first 24 hours, adding to the existing near quarter-of-a-billion dollar war chest already amassed this election cycle. With this historic haul, Harris for President saw the highest 24-hour raise of any candidate in history with over 888,000 grassroots donors making donations", it said. "There is a groundswell behind Kamala Harris, and convicted felon Donald Trump knows his divisive, unpopular agenda can't stand up to the vice president's record and vision for the American people", the campaign said, according to which more than 30,000 new volunteers have signed up for the campaign.

Biden returns to White House after testing negative for Covid

Washington US President Joe Biden returned to the White House on Tuesday, after days of self-isolation at his Delaware House, with his doctors saying that his symptoms of Covid-19 have been resolved. "I am feeling well," Biden said when asked how he is feeling. The President took a Binax rapid antigen test and is negative, Dr Kevin O'Connor, Physician to the White House said in a memorandum to the White House Press Secretary. Biden's "symptoms have resolved", he said.

He did not respond to shouted questions about why he dropped out of the race and whether his deputy Vice President Kamala Harris could beat the Republican presidential nominee Donald Trump.

During his quarantine period, the 81-year-old President sent political shockwaves around the country on Sunday with a post on social media announcing that he was not accepting the Democratic nomination.

He added that he would "focus all his energies on his duties as president for the remainder of his term" and offered his full support and endorsement to his vice president, Kamala Harris, as his choice to replace him on the ticket. The announcement came after mounting pressure about Biden's age and ability to take on Republican rival Trump. Biden tested positive for Covid-19 while campaigning in Las Vegas on Wednesday and had been isolated at his Delaware home since. "The President's symptoms have been resolved. Over the course of his infection, he never manifested a fever, and his vital signs remained normal, including pulse oximetry. His lungs remained clear," said O'Connor. Biden's infection is negative. He will continue to be monitored for any recurrence of illness. The President continues to perform all of his presidential duties. As always, I will continue to keep your office updated with any changes in his condition or treatment plan," he added.

US elections: Republican leaders urge colleagues to steer clear of racist, sexist attacks on Harris

WASHINGTON Republican leaders are warning party members against using overtly racist and sexist attacks against Vice President Kamala Harris, as they and former President Donald Trump's campaign scramble to adjust to the reality of a new Democratic rival less than four months before Election Day. At a closed-door meeting of House Republicans on Tuesday, National Republican Congressional Committee chairman Richard Hudson, R-N.C., urged lawmakers to stick to criticising Harris for her role in Biden-Harris administration policies. "This election will be about policies and not personalities," House Speaker Mike Johnson told reporters after the meeting. "This is not personal with regard to Kamala Harris," he added, "and her ethnicity or her gender have nothing to do with this whatsoever." The warnings point to the new risks for Republicans in running against a Democrat who would become the first woman, first Black woman and first person of South Asian descent to win the White House. Trump, in particular, has a history of racist and misogynistic attacks that could turn off key groups of swing voters, including suburban women, as well as voters of colour and younger people. Trump's campaign has been courting. The admonitions came after some members and Trump allies began to cast Harris, a former district attorney, attorney general and senator, as a "DEI" hire—a reference to diversity, equity and inclusion initiatives.

US man involved in 2021 Capitol riot charged with fleeing to Ireland to avoid jail

UPDATED. A Wisconsin man fled to Ireland and sought asylum to avoid a prison sentence for joining a mob's attack on the US Capitol over three years ago, federal authorities allege in a court filing on Tuesday. The filing charges Paul Kovacik with defying a court order to surrender and serve three months behind bars for participating in the January 6, 2021, riot at the Capitol. Kovacik, 56, was arrested last month after he voluntarily returned to the US from Ireland. Kovacik is serving his sentence at a federal prison in Chicago and is scheduled to be released from prison on September 8. But a conviction on the new misdemeanour charge could lead to more time behind bars. Kovacik told authorities that he decided to withdraw his asylum claim and return to the US because he felt homesick, according to a US Marshals Service deputy's affidavit. The FBI initially arrested Kovacik in June 2022. A year later, US District Judge Reggie Walton sentenced Kovacik after he pleaded guilty to a misdemeanour



charge of parading, demonstrating or picketing in a Capitol building. Kovacik took videos of rioters' damage as he moved through the Capitol on January 6. He later uploaded his footage onto his YouTube channel, with titles such as "Treason Against the United States is

about to be committed", according to prosecutors. They said Kovacik's criminal record included 24 prior convictions. Walton initially ordered Kovacik to report to prison on August 22, 2023, but the judge agreed to extend that deadline to November 1, 2023, after

Kovacik requested more time for his seasonal employment at a theme park in Georgia. The court issued a warrant for Kovacik's arrest after he flew to Dublin, Ireland, through Germany on the day that he was supposed to report to prison in Chicago. Kovacik called himself a "political prisoner" when investigators questioned him after his arrest last month at an arrival gate at Minneapolis-Saint Paul International Airport, according to the deputy's affidavit. Inside his luggage, authorities found documents related to his asylum request, which cited a fear of political persecution, the deputy wrote. The affidavit doesn't say whether the Irish government acted on Kovacik's request. An attorney who represented Kovacik in his Capitol riot case declined to comment on the new charge. More than 1,400 people have been charged with federal crimes related to the January 6 attack. Several other Capitol riot defendants have become fugitives at different stages of their prosecutions.

Taiwan on alert as typhoon Gaemi approaches; flights cancelled, offices shut

Yilan. Taiwan hunkered down on Wednesday ahead of the arrival of Typhoon Gaemi, with financial markets closed, people given the day off work, flights cancelled, and the military put on stand-by amid forecasts of torrential rain and strong winds. Gaemi, the first typhoon of the season to affect Taiwan, is expected to make landfall on the northeast coast early evening on Wednesday, according to the island's Central Weather Administration. Currently categorised as a medium-strength typhoon by Taiwan, it is then likely to move across the Taiwan Strait and then hit the southeastern Chinese province of Fujian late afternoon Friday. In rural Yilan county, where the typhoon will first hit land, wind and rain gathered strength, shutting breakfast eateries and roads mostly emptied. "This could be the biggest typhoon in recent years," fishing boat captain Hung Chun told Reuters, adding Yilan's Suao harbour was packed with boats seeking shelter. "It's charging directly towards the east coast and if it makes landfall here the damage would be enormous." Work and school are



suspended across Taiwan, with the streets of capital Taipei almost deserted during what is normally rush hour amid squally rain.

The transport ministry said almost all domestic flights had been cancelled, along with 201 international flights. All rail operations will stop from midday (0400GMT), but the high speed rail services connecting northern and southern Taiwan will continue to operate, it added. However, TSMC (2330.TW), the world's largest contract chipmaker and a major supplier to Apple (AAPL.O), said it expected its factories to maintain normal production during the typhoon, adding it had activated routine preparation procedures. SOLDIERS

STANDING BY

Some mountainous central and southern Taiwan counties are expected to see total rainfall of up to 1,800 mm (70 inches) during the typhoon, the weather administration said. More than 2,000 people have been evacuated from sparsely populated mountain areas, the government said, which are at high risk of landslides from the "extremely torrential rain". Taiwan's defence ministry said it was ready to assist with disaster relief and had put 29,000 soldiers on stand-by. While the typhoon has severely curtailed this year's annual Han Kuang war games they have not been cancelled, with live fire drills taking place as scheduled on the Penghu islands in the Taiwan Strait on Wednesday morning. The typhoon is forecast to make landfall in China's Fujian late Thursday. Gaemi, with a cloud system spanning the Western Pacific, northern Philippines and parts of the South China Sea, is expected then to turn north, bringing rain to provinces such as Hubei, Henan and even Hebei.

Officers left post to go look for Trump rally gunman before shooting, state police boss says

WASHINGTON. Two local law enforcement officers stationed in the complex of buildings where a gunman opened fire at former President Donald Trump left to go search for the man before the shooting, the head of Pennsylvania State Police said Tuesday, raising questions about whether a key post was left unattended as the shooter climbed onto a roof. Pennsylvania State Police Col. Christopher Paris told a congressional committee that two Butler County Emergency Services Unit officers were stationed at a second-floor window in the complex of buildings that form AGR International Inc. They spotted Thomas Matthew Crooks acting suspiciously on the ground and left their post to look for him along with other law enforcement officers, he said. Paris said he didn't know

whether officers would have been able to see Crooks climbing onto the roof of an adjacent building had they remained at the window. A video taken by a lawmaker who visited the shooting site on Monday shows a second-story window of the building had a clear view of the roof where Crooks opened fire; it was unclear if the video showed the window where the officers had been stationed. The Pennsylvania State Police commissioner's testimony before the House Homeland Security Committee provides new insight into security preparations for the Trump rally in Butler, Pennsylvania, on July 13, but raises further questions about law enforcement's decisions before Crooks opened fire. Butler County District Attorney Richard Goldinger, who oversees the emergency services

unit, didn't immediately respond to a text message Tuesday from The Associated Press. A Secret Service spokesperson didn't respond to questions from the AP, including who gave the command for those officers to leave their post. The revelation comes amid growing questions about a multitude of security failures that allowed the 20-year-old gunman to get onto the roof and fire eight shots with an AR-style rifle into the crowd shortly after Trump began speaking. One spectator was killed and two others were injured. Trump suffered an ear injury but was not seriously hurt. Secret Service Director Kimberly Cheatle resigned earlier Tuesday, a day after she was berated for hours by Democrats and Republicans over the agency's failure to protect the Republican presidential nominee.



people and Government of Ethiopia as rescue efforts continue to find the missing and assist the displaced," African Union chairperson Moussa Faki Mahamat wrote on the social media platform X. The head of the World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus, who is Ethiopian, said he was thinking of all the families affected and that a WHO team had been sent to support immediate health needs.

"As the region continues to face the harsh impacts of climate change, we urge everyone to stay vigilant and follow safety protocols to protect lives and prevent further tragedies," said Workneh Gebeyehu, executive secretary of the Intergovernmental Authority on Development, a regional bloc.

3,000 migrants travel in caravans to US border, undeterred by crackdown

—About 3,000 people carrying bags, water and small children trod through intense heat along a highway in southern Mexico, travelling in two groups aiming to



Washington. About 3,000 people carrying bags, water and small children trod through intense heat along a highway in southern Mexico on Tuesday, travelling in two groups aiming to reach the US border.

Over the past week, migrants have launched two caravans - large groups of people walking together - bound for the United States. In the past such caravans have stirred intense debate in the United States, where immigration is likely to be a key topic ahead of the November 5

presidential election. "Whoever is (in charge of the US government), we will continue the fight to be there," said Leivi Galvna, a migrant from Honduras. "We have to fight for our dream." As they walked, the group shouted phrases like "yes we can," while pushing worn-out strollers. In recent years, caravans have been a means for tens of thousands of migrants to cross Mexico, often as a safety measure amid reports that robberies, rapes and kidnappings of

migrants are common.

The caravans are often a lifeline for those who cannot afford to pay a smuggler or human trafficker for a "safer" journey.

"I travel more safely in a caravan, I don't want to be killed in Mexico," said Yoisy, a Venezuelan migrant who tired of waiting for an appointment through the US Customs and Border Protection CBP One platform to apply for asylum.

The Security Ministry in Chiapas, Mexico's southernmost state, bordering Guatemala,

told Reuters there were between 2,500 and 3,000 people in the caravan and most were Venezuelans. Another local government source said there had been a significant increase in the number of children in recent caravans.

In June, when the Biden administration early in the month implemented a policy prohibiting migrants caught crossing the US-Mexico border illegally from applying for asylum, the daily average of arrests ranged between 2,500 and 3,000 migrants per day for a week, a huge decline from prior months.

But thousands of migrants continue to take a shot at seeking asylum in the United States with the hope of leaving behind insecurity, poverty and other problems in their home countries.

Jose Maria Garcia, director of the Juventud 2000 migrant shelter in Tijuana, said he did not know to which border town the caravans were headed, but said the uncertain outcome of the upcoming US elections could be a motivating catalyst.

"The migrant community is very confused," he said, of how migrants view the future of US immigration policy.

NEWS BOX

Paris Olympics 2024: India wants to win medal for PR Sreejesh, says Harmanpreet Singh

New Delhi. Indian men's hockey team captain Harmanpreet Singh has said that the team wants to dedicate their Paris Olympics 2024 campaign to retiring goalkeeper PR Sreejesh and win a medal for him. Sreejesh, who has been one of India's best goalkeepers of all time, decided to bring down the curtains on his playing career after the event in Paris. The 36-year-old had played a pivotal role in India's bronze medal win at Tokyo.

Sreejesh had initially suggested he could play well beyond the Paris Olympics but then went on to announce his decision before the games started. Harmanpreet, who is set for his third Olympics alongside Sreejesh, penned an emotional message for the India goalkeeper on his Instagram account. The India captain said that Sreejesh has been an inspiration to the team. Harmanpreet also remembered the 2016 Jr. men's World Cup where Sreejesh served as a mentor to the team and helped them lift the title.

Harmanpreet said that the team wants to 'win it for Sreejesh' and they're more encouraged to stand on the podium once again at the Olympics. "Paris 2024 will indeed be a special tournament. We have decided to dedicate our campaign to the legend PR Sreejesh. He has been an inspiration for all of us and I still remember his mentorship in 2016 Junior World Cup when we lifted the title. It was the beginning of many of our careers in International hockey. We want to 'win it for Sreejesh' and we are all the more encouraged to stand on the podium once again."

What Sreejesh said about his retirement

Sreejesh opened up about his retirement on social media and said he looks back at his career with immense pride and his journey has been nothing short of extraordinary.

"As I prepare for my last dance in Paris, I look back with immense pride and forward with hope. This journey has been nothing short of extraordinary, and I am forever grateful for the love and support from my family, teammates, coaches, and fans."

Eoin Morgan denies reports of becoming next England white-ball coach

New Delhi Former England captain Eoin Morgan has denied reports suggesting that he could replace Matthew Mott as the next white-ball coach on July 23, Tuesday. England's defence of both their world titles ended in poor fashion as they had a horrendous campaign in India last year during the ODI World Cup. This was followed by a semi-final exit at the hands of India in the T20 World Cup 2024, as the pressure has started to mount on Mott. Reports in the British media has suggested that Mott would leave the post and England have started to sound out to possible candidates. Morgan has been one of the names linked with the job, but quickly dismissed the suggestions. Speaking to Sky Sports, while commentating for the Hundred, Morgan said that it was actually news to him.

"This news is actually news to me," he said. "It's obviously not nice when a coach comes under fire and there is a lot of speculation about his future, but only time will tell what will happen."

I want to coach down the line

Morgan admitted that he would want to coach the team down the line, but the timing at the moment is correct one. The former England captain said that he has a young family at the moment and wants to spend time with them. Morgan also said that he is enjoying his commentary duty as well.

"I've been asked a lot [in the media] over the past couple of months about the role, and if I would take it on," Morgan said. "My answer has simply been that the timing for everything in my life at the moment is not right. Yes, I want to coach down the line. But I have a young family, and I spend a lot more time at home and watching cricket doing this [commentary]. I'm absolutely loving what I'm doing," said Morgan.

England pacer Jofra Archer sets sights on playing in the next Ashes series

New Delhi. England pacer Jofra Archer is aiming to play in the next edition of the Ashes and claimed he would use the rest of the current year to proving people wrong. Archer has made a slow and steady return to the field after struggling with a lot of injury setbacks over the past few years. The pacer has returned to T20 cricket, but is yet to make it to the longer formats. Recently, Ben Stokes said that Archer won't be rushed back into the longest format of the game. Speaking to BBC in an interview, Archer said that he wants to use the rest of 2024 to make sure making it to the Ashes series will remain a possibility. The pacer said he is tired of seeing people make fun of him on social media with regards to his fitness and want to prove everyone wrong. "I am going to use the rest of this year to make sure that is at least a possibility. I'm tired of going on Instagram and seeing posts saying 'he's going to be on the physio's bed in the next two weeks' and stuff like that. I want to spend the rest of the year proving some people wrong and hopefully play in another Ashes," said Archer. Archer said that he aims to manage himself as best as possible and get through until the start of the Championship next year. The pacer plans to use those games and keep building up towards his return to Tests. "I will manage myself as best as possible and get myself [through] until at least maybe the start of the Championship next year."

Asia Cup 2024: Smriti Mandhana gifted 'token of love' statue by Nepal captain

Women's Asia Cup 2024: India batting star Smriti Mandhana was gifted a special Buddha statue by Nepal cricket team after their game in Dambulla on Tuesday. Smriti also agreed to pose for photographs with the Nepal players after India's 82-run victory.

Dambulla. Nepal captain Indu Barma came up with a heart-warming gesture after their Women's Asia Cup 2024 match against India, gifting stand-in captain Smriti Mandhana a special Buddha statue. The 'token of love' was handed over to Smriti Mandhana during the post-match presentation ceremony in Dambulla, Sri Lanka on Tuesday, July 23.

India defeated Nepal in a one-sided contest in



their final Group A match to seal a spot in the semi-finals of the Women's Asia Cup. While it was intense on the field, India and Nepal players kept it light off it. Smriti Mandhana and Indu Barma went on to pose for a photograph with the former flaunting the special gift from the Nepal cricket team. Soon after the post-match formalities,

young Nepal cricket team players did not miss an opportunity to get photos clicked with Smriti Mandhana. The Indian batting star took time out to pose with every player, who requested a photograph with her. India ended the group stage of the Women's Asia Cup in a dominant fashion, winning all three games. After outclassing Pakistan in the

tournament opener, India went on to beat the UAE and Nepal.

Smriti Mandhana led the team against Nepal after Harmanpreet Kaur was rested for the match. India were in the mood to experiment with their batting order as stand-in captain Smriti decided against opening the batting. Shafali Verma made a special by hammering 81 off just 48 balls, hitting 12 boundaries and a six. She stitched a 122-run opening stand in just 84 balls with Dayalan Hemalatha, who made 47 off 42 balls. Jemimah Rodrigues, batting at No. 4, chipped in with a 15-ball 28 as India posted 178 for 3 on the board.

In reply, Nepal managed only 96 for 9 in their quota of 20 overs. Only four of their batters got to double-digit scores as the Indian spinners spun a web around them. Deepti Sharma continued her fine form in the Asia Cup, picking another three-wicket haul while Radha Yadav and Arundhati Reddy chipped in with 2 wickets.

India and Pakistan qualified for the semi-finals from Group A. While Pakistan are likely to face Sri Lanka in the semi-final, India might face either Bangladesh or Thailand on Friday.

'Don't see any problem between Virat Kohli and Gautam Gambhir': Ashish Nehra

New Delhi Former India pacer

Ashish Nehra has claimed that he doesn't see any problem between Virat Kohli and Gautam Gambhir as they will start sharing the dressing room once again. Gambhir will be taking over as the India coach from the Sri Lanka tour, where Kohli would be part of the ODI squad. Both men have had on-field spats during the IPL, but seemed to have buried the hatchet during the 2024 season as they were seen having warm conversations. Gambhir had shutdown the chatter about his equation with Kohli during his first press conference and Nehra feels there will be no animosity between the two inside the dressing room. Speaking to India Today's sister channel Sports Tak, the former pacer said that both men are very passionate individuals. Nehra feels that once both of them come into the Indian dressing room, they will be united for the team's



cause. "Virat Kohli and Gautam Gambhir are two very passionate individuals. Whenever they play for a team, they can turn up against the opposition. But, when they are together in a dressing room, they are together, united for the team. You're talking about Virat Kohli, who has an experience of over 16-17 years, Gautam Gambhir is also experienced. The things on

the outside, people get an impression about it. It's not just Gambhir and Kohli, there are so many players who have had on-field spats in the past, but when they play together for a team, they have done well as a player, as a coach-captain, as a coach and senior player," said Nehra. Gambhir is upfront, transparent

Nehra also said that Gambhir is always upfront and transparent and speaks his mind all the time.

"Gautam Gambhir is upfront, transparent which is great. He keeps it clear and speaks his mind. That's very important. Yes, I agree, everybody has their own style (of coaching), to operate with the coach, captain and player. I don't see any problem with these two and where they are in their careers," said Nehra. India will start the tour of Sri Lanka on July 27 with the T20I series. Kohli will be expected to join the squad before the ODI series begins on August 2.

'Don't think Chelsea will have any problems when Enzo Fernandez is back': Maresca

New Delhi Chelsea manager Enzo Maresca isn't expecting any issues within the squad once Enzo Fernandez links up with them following the racism row after Argentina's Copa America 2024 win. Fernandez was seen on his Instagram live for singing an offensive racist song directed at French players and their African roots. Chelsea defender Wesley Fofana would go on to accuse his teammate of uninhibited racism. Fernandez would go on to apologise for his actions and all reached out to his teammates to express his regrets over the incident. The midfielder will now join the team ahead of the pre-season and face his teammates for the first time since the incident. Chelsea boss Maresca is, however, expecting the midfielder to be welcomed back with no issues and said there will be no issues amongst the squad. "I don't think so to be honest. At the end, they are all human beings. There is no bad intention from any one of them. I don't think when Enzo is back, we will have any problems. The player and club clarified the situation. It's great the player did the statement to apologise. The club did the same. There is not something to add to the situation. It's clear and clarified,"



said Maresca.

Hope everyone will be on same page

Chelsea captain Reece James commented on the matter as well and said he had spoken to Fernandez and the people affected about the matter and it would stay within the club. The Blues skipper is also hoping that everyone will be on the same page and everyone can move on from the situation. "It's obviously a really difficult situation. I think Enzo (Fernandez) quickly acknowledged he did wrong, put his hand up and apologised to the club, the team and the people offended. "I have spoken to Enzo and everyone involved but those conversations have to stay in house. He hasn't arrived yet so I don't know if there is anything to amend. I hope everyone will be on the same page and we can move on from the situation," said James. Chelsea will face Wrexham at the Levi's stadium on July 25, Thursday in their first pre-season game in the US.

Paris Olympics 2024, football: New Zealand report Canada to IOC after drone incident

New Zealand has raised a complaint about Canada to the international Olympic Committee after the women's football team's training was disrupted by a drone. The drone operator was found to be a member of the Canada women's football team.



New Delhi New Zealand's Olympic Committee (NZOC) reported that their women's soccer team experienced a disruption during a training session due to a drone operated by a staff member from the Canadian team, whom they are set to play against in Group A on Thursday. The NZOC promptly reported the incident to the International Olympic Committee's (IOC) integrity unit. The NZOC said that a drone

was flown over the training session on July 22 and the incident was immediately reported to the police. This was followed by the detention of a support member of the Canada team, who was the operator of the drone. "On July 22, a drone was flown over the New Zealand women's football team training session in St Etienne," the NZOC said on Tuesday. "Team support members immediately reported the incident to police, leading to the drone operator, who has been identified as a support staff member of the

wider Canadian Women's football team, to be detained." Following this, Team Canada issued an apology and launched an investigation into the matter. The Canadian Olympic Committee acknowledged the incident, specifying that it involved "a non-accredited member of the Canada Soccer support team." They stated that they are currently "reviewing next steps with the IOC, Paris 2024, Canada Soccer, and FIFA. In a statement they released, the Canadian Olympic Committee said they stand for fair-play and are shocked and disappointed with what has happened. "The Canadian Olympic Committee stands for fair-play and we are shocked and disappointed. We offer our heartfelt apologies to New Zealand Football, to all the players affected and to the New Zealand Olympic Committee," they said in a statement. Canada and New Zealand will lock horns during the Olympics on July 25 in their opening match. Both teams are in Group A, which also has France and Colombia.

I am not surprised: Ashish Nehra reacts to Hardik Pandya T20I captaincy snub

New Delhi Former India fast bowler and Gujarat Titans head coach Ashish Nehra said he was not surprised by the Indian management's decision not to appoint Hardik Pandya as the new T20I captain. Nehra said he understood the thought process of chief selector Ajit Agarkar and newly-appointed coach Gautam Gambhir in picking Suryakumar Yadav as the new T20I skipper. Hardik Pandya, who led India in T20is in 2023, was Rohit Sharma's deputy in the victorious World Cup campaign in June in the USA and the West Indies. While Hardik was expected to replace Rohit as T20I captain after the latter retired from the format, the BCCI announced Suryakumar as the new T20I captain for the upcoming three-match series in Sri Lanka. Ajit Agarkar, speaking to the press on Monday, said that the team management wanted Hardik Pandya to focus on his fitness and backed Suryakumar to shine in his new role. The former fast bowler pointed fingers at

Hardik's recurring injury concerns that have put him on the sidelines frequently over the last four to five years. No, I am not surprised. When it comes to cricket, these things keep happening. Yes, Hardik Pandya was vice-captain in the World Cup, but at the same time, there is a new coach who has come in. Every coach and every captain have different thoughts. At this time, his (Gambhir's) ideas are toward that direction," Nehra told India Today's sister channel SportsTak. "I think Ajit Agarkar and Gautam Gambhir have made it clear, that's good. He is playing one format, 50-over also, he is playing less. Hardik Pandya, in white-ball cricket, will remain a very, very important player for Indian cricket. When you have him, you can have 4 fast bowlers, he brings in a different balance to the side and keep in mind, that there's no impact player in international cricket. Not just Hardik Pandya, but when you have so many matches, there will be changes. Even



Rishabh Pant has captained, KL Rahul has captained," he added.

COACH NEHRA THRILLED FOR SHUBMANGILL

Notably, Hardik Pandya tasted success in his first assignment as the captain of an Indian Premier League (IPL) franchise in 2022 at Gujarat Titans. He formed a good working relationship with Titans' coach Nehra. The two oversaw GT's run to glory in IPL 2022 and the team also reached the final of IPL in 2023. Meanwhile, Ashish Nehra also

welcomed the decision to appoint Shubman Gill as the vice-captain in both T20Is and ODIs, saying the Gujarat Titans captain will only improve with experience across all three formats. Nehra and Gill worked together as the captain and coach for the Titans in 2024. "They have made Shubman Gill in not just one format, but in all three formats. That means you are looking ahead."

"Shubman Gill is a work in progress. He is 24-25 years old now. He will get better as we go ahead. He has the desire to play all 3 formats, he has the heart to learn. He is not someone who thinks that whatever he is doing is right. He is not that kind of guy. Be it a youngster or an experienced player, he likes to have a discussion and learn," he said. Team India arrived in Sri Lanka on Monday and began training for the upcoming T20I series, starting July 27, on Tuesday. Coach Gambhir and captain Suryakumar oversaw their first training session together in Palkekele.



Janhvi Kapoor

On Telugu Debut Devara: 'Had A Great Time On Sets'



Telugu actor Jr NTR and Janhvi Kapoor are all set to showcase their magical chemistry for the first time on screen in their upcoming film Devara: Part 1. In the latest update, the latter has hinted that she will be shooting another song with Jr NTR and she is very excited about the song. Bollywood star Janhvi Kapoor, who is gearing up for her Telugu debut with star Jr NTR, recently said that she is looking forward to shooting another song with the actor. She was asked if she would rather act with Amitabh Bachchan or do a dance number with Hrithik Roshan or Vicky Kaushal.

The Dhadak actress said in an interview with Mashable India, "I just shot a song with Jr NTR sir and I can't wait to shoot our next song together. I will choose that; I want to dance with Jr NTR." For the unversed, the duo reportedly shot the first song of the film in Thailand. Earlier, Janhvi had spoken at length about her role in Koratala Siva's Devara during the promotions of her film Mr & Mrs Mahi.

Talking about her role, she said that it was very entertaining. Janhvi also revealed that she had a great time on the sets and was overwhelmed to see people doing their work with love, conviction and passion. The actress also said that she feels lucky to have got this opportunity.

The upcoming film Devara: Part 1, starring Jr NTR and Janhvi Kapoor in the lead roles, is directed by Koratala Siva. It will be the first part of a two-part film series. The action film stars Bollywood actor Saif Ali Khan in the lead role of the antagonist. Devara: Part 1 also features brilliant actors like Prakash Raj, Srikanth, Shine Tom Chacko, Narain and many others in pivotal roles. The song was originally scheduled to release on May 19 but was postponed to September 27, due to the general elections and upcoming post-production work.

Kajol Has Wrapped Up Major Stunt Scenes in Maharagni, Reveals Samyuktha: 'Action Done By Us'



18 years after starting her acting career, south actor Samyuktha is all set to make her Bollywood debut with Maharagni: Queen Of Queens, which also marks Kajol and Prabhu Deva's onscreen reunion 27 years after Minsara Kanavu (also known as Sapnay in Hindi). The teaser of Maharagni featured Kajol in a never-seen-before-action avatar beating up bad guys and making an entry like a quintessential and larger-than-life south hero. The film will also see Samyuktha pack some solid punches. Sharing an update on Maharagni, Samyuktha exclusively tells News18 Showsha, "We've been shooting part-by-part. They've wrapped up a schedule that included major portions of Kajol ma'am's action sequences. Another schedule that included my introduction and some car chase sequences featuring me have also been wrapped. We had a blast! They got an action director from abroad and the way they planned everything was wonderful. I feel so grateful."

While 95 percent of the film shoot is still pending, Samyuktha is thrilled that she already got the opportunity to film some scenes with Kajol and Naseeruddin Shah. So, was she nervous about the same? "If your co-stars are cool, good to talk to and ready to strike up conversations, it's always nice. We had a photoshoot with all three of us and it was really fun!" she says. The Bheemla Nayak and Vaathi actor lauds her senior co-actors for putting in the effort to make her feel comfortable. Sharing an anecdote, she remarks, "With Naseeruddin sir, I felt like I was interacting with my own grandfather (laughs). During the shoot, he was to hold a glass of wine and he began explaining to me how 'daaru' actually means medicine. Since he was freely talking to me, I could be myself. It was only when I took a step back and took a moment that I realised where I'm and who I was working with." She further adds, "Kajol ma'am was helping me on the side with cues when I was shooting for my close-ups. It was really lovely of her. I was tense not because of them but because I wanted to get my Hindi dialect right. They've a lot of experience and I didn't want to give them that impression that I'm not prepared. I don't know how but I pulled it off eventually."

Many Moods' Of Vicky Kaushal, Triptii Dimri and Ammy Virk.

Courtesy: Neha Dhupia



Starring Vicky Kaushal, Triptii Dimri and Ammy Virk, Bad Newz continues to win the audience's hearts for its fresh twist to the rom-com genre. Besides the lead trio, the film also has Neha Dhupia playing a pivotal role. The actress has now given her fans a sneak peek into some precious moments with the star cast of the film. In an Instagram post, she attached some pictures from the sets, emphasising the 'many moods' of its cast and crew. The heartwarming carousel opens with a never-before-seen image of Neha Dhupia along with Vicky Kaushal, Triptii Dimri and Ammy Virk. Posing against a picturesque background, the talented stars radiated joy. It is followed by a selfie wherein all four were joined by the director of the film, Anand Tiwari. A few pictures also showcase the camaraderie between Neha and Triptii as the actresses flash bright smiles for some endearing clicks. Next, we can also see Neha indulging in a chat with the director Anand. Additionally, a bunch of selfies offering a glimpse of the joyous time during the shoot have been added to the post.


Previously, Neha Dhupia dropped a fun BTS video on Instagram accompanied by a short note that read, "It's never not fun with this crazy bunch #maacorona ki kasam mazaa aa gaya."

Bad Newz is a humorous twist from regular rom-com films, exploring an off-beat storyline around a rare medical condition. It delves into the life of a woman who finds out that she's expecting twins from two different fathers, portrayed by Kaushal and Virk, in a rare case of heteropaternal superfecundation. Produced by Amritpal Singh Bindra, Apoorva Mehta and Karan Johar's Dharma Productions, Bad Newz is a sequel to 2019 released Good Newz. Starring Kareena Kapoor Khan, Akshay Kumar, Kiara Advani and Diljit Dosanjh in the lead roles, the film emerged as a blockbuster at the box-office. Coming back to Bad Newz and its box-office performance, the film amassed nearly Rs 30 crore within three days of its release and continues to perform well.

Kartik Aaryan

Signs 'Pati Patni Aur Woh 2' As He Makes A Comedy Comeback? Here's What We Know

Kartik Aaryan continues to captivate audiences with his diverse film choices, showcasing his versatility as an actor in the industry. Following the praise for his recent hit, Chandu Champion, where his performance impressed many, he is now set to embark on a project that holds personal significance for him. Fans can anticipate his return to the comedy genre, as Kartik has greenlit the sequel to the 2019 smash hit Pati Patni Aur Woh, which not only dominated the box office but also left viewers thoroughly entertained. According to an insider familiar with the production, the screenplay for the sequel has been finalized, sparking high enthusiasm from Kartik as he gears up to revisit his character as the endearing small-town protagonist, "Kartik loved the script of PPAW 2 and, as soon as he gave his nod, the makers decided to get this one rolling soon. Knowing the actor's tight schedule and several films lined up, the makers have secured his dates as soon as possible. Once Kartik wraps up shooting for Bhool Bhulaiyaa 3, PPAW 2 will go on floors," the source told Bollywood Hungama.



The 2019 film Pati Patni Aur Woh received immense love from audiences for its unconventional love narrative, with Kartik's electrifying dance moves in the viral track 'Dheeme Dheeme' causing a frenzy online. The dance craze extended beyond just social media users, as even big names like Deepika Padukone and Hrithik Roshan were spotted grooving to the beats, enjoying the catchy steps.

With the sequel being produced by Bhushan Kumar and Juno Chopra, and directed by Mudassar Aziz, the project is shaping up to be an exciting endeavor. While the 'Woh' character is yet to be confirmed for the sequel, Kartik's successful track record in the comedy genre is undeniable. From hits like Pyaar Ka PUNCHAMA (1 & 2), Sonu Ke Titu Ki Sweeti, Pati Patni Aur Woh, Luka Chuppi, to the upcoming Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik has consistently proven himself as a box office magnet. Currently immersed in the filming of Bhool Bhulaiyaa 3, one of the most anticipated releases of the year slated for a Diwali launch, Kartik's dynamic lineup of projects promises an exciting cinematic journey ahead for his fans, with his upcoming films poised to make a significant impact at the box office.

